



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23—जुलाई 29, 2005 (श्रावण 1, 1927)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23—JULY 29, 2005 (SRAVANA 1, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2005

सं. एन-12/13/1/2005-यो. एवं विकास—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 में संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाता है जो उक्त धारा की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु, यदि कोई हों, भारत के राजपत्र भाग-3 खण्ड-4 में दिनांक 26 फरवरी, 2005 को पहले प्रकाशित किए गए हैं, अर्थात्:--

- (i) ये विनियम, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2005 कहलायेंगे।
(ii) ये 01 अक्टूबर, 2005 से लागू होंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31क में "15 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "12 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

अशोक ज. पवार

बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2005

सं. यू-16/53/2002 चिकित्सा-2(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1. डॉ. जी. जी. करना	1.8.05 से 31.7.06	जमालपुर कार्यालय
2. डॉ. गोविंद एम. पटेल	अधिसूचना से एक वर्ष तक	खोखरा

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2005

सं. एन-15/13/11/1/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 जून, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	दौराहा	244	पायल	लुधियाना
2.	कानेच	220	लुधियाना	लुधियाना
3.	जसपाल बांगर	259	लुधियाना	लुधियाना
4.	खाकट	234	लुधियाना	लुधियाना
5.	राजगढ़	243	पायल	लुधियाना
6.	जसपालों	150	खन्ना	लुधियाना
7.	मल्लीपुर	247	पायल	लुधियाना
8.	कादों	246	पायल	लुधियाना

एस. थॉमस
निदेशक (यो. एवं वि.)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 01 जुलाई 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 13 — सी० ए० (परीक्षा)/न०/2005:— चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि कॉंसिल ऑफ दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय और फाईनल की परीक्षाएँ निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

उसी प्रकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अनुसूची 'सी', 'जी' और 'एच' के अनुसार पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों, मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई०आर०एम०) और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाइजेशन (आई०टी०एल० एवं डब्ल्यू टीओ) की परीक्षाएँ भी निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों (केवल भारत स्थित केन्द्रों) पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम परीक्षा :-

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25—बी (4) के अन्तर्गत के अनुसार)

5,7,8 और 9 नवम्बर 2005 (प्रातः कालीन सत्र—8 बजे से 11 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय परीक्षा :-

(पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28—बी (5) के अन्तर्गत है, के अनुसार)

ग्रुप — I	:	5,7 और 8 नवम्बर, 2005
ग्रुप— II	:	9,10 और 11 नवम्बर, 2005

(दोपहर का सत्र—12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) (भारतीय समयानुसार)

फाईनल परीक्षा :- (पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 31 (2) के अन्तर्गत है के अनुसार)

ग्रुप —I	:	5,7,8 और 9 नवम्बर, 2005
ग्रुप —II	:	10,11,12 और 14 नवम्बर, 2005

(प्रातः कालीन सत्र — 8 बजे से 11 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम परीक्षा)

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के "अनुसूची सी" के अन्तर्गत)

ग्रुप — I	:	10 और 11 नवम्बर, 2005
ग्रुप — II	:	12 और 14 नवम्बर, 2005

(प्रातः कालीन सत्र — 8 बजे से 11 बजे तक)

(भारतीय समयानुसार)

इन्स्यूरेंस एवं रिस्क मैनेजमेन्ट (आई0आर0एम0) परीक्षा :-

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अन्तर्गत)

माइगूल 1 से 4	10,11,12 और 14 नवम्बर, 2005
---------------	-----------------------------

(प्रातः कालीन सत्र—8 बजे से 11 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

इन्स्यूरेंस नल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाइजेशन

(आई0टी0एल0 एवं डब्लू टी ओ) परीक्षा :-

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के "अनुसूची एच" के अन्तर्गत)

माइगूल 5 और 9	नवम्बर, 2005
माइगूल 6 और 11	नवम्बर, 2005

(दोपहर का सत्र 12 बजे से 30 मिनट से 3 बजे तक) (भारतीय समयानुसार)

परीक्षा केन्द्र :-

(1) भारत में परीक्षा केन्द्र :-

01. अजमेर	02. अहमदाबाद	03. अजमेर	04. अकोला
05. इलाहाबाद	06. एलपी	07. अलवर	08. अम्बाला
09. अमरावती	10. अमृतसर	11. आसनसोल	12. औरंगाबाद
13. बंगलूर	14. बरेली	15. भठिन्डा	16. बेलगाँव
17. भीलवाड़ा	18. भोपाल	19. भुवनेश्वर	20. बीकानेर
21. छत्तीसगढ़	22. चेन्नई	23. कोयम्बटूर	24. कटक
25. देहरादून	26. दिल्ली	27. धनबाद	28. दुर्ग
/आई दिल्ली			
29. इरनाकुलम	30. फरीदाबाद	31. गजियाबाद	32. गोवा
33. गुन्टूर	34. गुड़गाँव	35. गुवाहाटी	36. ग्वालियर
37. हिसार	38. हुबली	39. हैदराबाद	40. इन्दौर
41. जबलपुर	42. जयपुर	43. जालंधर	44. जलगाँव
45. जम्मू	46. जामनगर	47. जमशेदपुर	48. जोधपुर
49. कानपुर	50. कोलकाता	51. कोलकाता	52. कोटा
53. कोट्टायाम	54. कोझिकोड	55. लखनऊ	56. लुधियाना
(कालिकाट)			
57. मदुरई	58. नंगलूर	59. मथुरा	60. मेरठ
61. मुसादाबाद	62. मुम्बई	63. गुजफरनगर	64. मैसूर
65. नागपुर	66. नासिक	67. गोंयडा	68. पानीपत
69. पटना	70. प्रमोदी-विन्दा	71. पूना	72. रायपुर
73. राजकोट	74. रांची	75. रोहतक	76. सेलम
77. सांगली	78. रायपुर	79. सिलिगुड़ी	80. शोलापुर
81. श्रीगंगानगर	82. सूरत	83. थाने	84. तिरुवन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम)
85. श्रीसूर (त्रीचूर)	86. तिरुवीरुपल्लु	87. उदयपुर	88. उडुपी
89. उज्जैन	90. वदोदा (वडोदा)	91. वाराणसी	92. वेल्लोर
93. विजयवाड़ा	94. विशाखापट्टनम	95. यमुनानगर	

(2) विदेशों में परीक्षा केन्द्र :- (केवल व्यवसायिक परीक्षा—प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा—द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये)

01. दुबई (यू0ए0ई0)

02. काठमांडू (नेपाल)

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा "सचिव", दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद आपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है।

व्यवसायिक परीक्षा—प्रथम, व्यवसायिक परीक्षा—द्वितीय एवं फाइनल परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्रों, 03 अगस्त 2005 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 60/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। साथ ही मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाईजसन परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्र 25/- रु0 प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध होंगे। उपरोक्त सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्र 03 अगस्त 2005 से उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नगद भुगतान करने पर 03 अगस्त, 2005 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 24.08.2005 तक पहुंच जाये। आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 24.08.2005 के बाद 31.08.2005 तक 200/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 31.08.2005 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आवेदन पत्र इन्स्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं आकर भी दिया जा सकता है या इन्स्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 24.08.2005 तक जमा कराया जा सकता है।

जबकि इन्स्टीट्यूट के सदस्यों की परीक्षाओं — मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम), इन्स्यूरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेन्ट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाईजसन परीक्षाओं के आवेदन पत्र 03 अगस्त, 2005 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही जमा कराये जा सकते हैं।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम परीक्षा के परीक्षार्थियों को इस परीक्षा सत्र में भी आवेदन पत्र वैअसाइट डब्लू डब्लू डब्लू आईसीएआई.निक.इन पर सीधे भरने का विकल्प प्रयोगात्मक आधार पर किया गया है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है :-

व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम परीक्षा	शुल्क	1000 /— रुपये
--------------------------------	-------	---------------

व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय परीक्षा

शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये 1250 /— रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये 750 /— रुपये

फाईनल परीक्षा

शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये 1750 /— रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये 1000 /— रुपये

मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम), परीक्षा

शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये 400 /— रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये 200 /— रुपये

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट
(आई.आर.एम.) परीक्षा :-

शुल्क

1000 /— रुपये

इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाईजेसन

(आई0टी0एल0 एवं डब्लू टी ओ) परीक्षा:-

शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिये 2000 /— रुपये

केवल एक ग्रुप के लिये 1000 /— रुपये

दुबई केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को अमेरिकन डालर यू0 एस0 डालर 200, यू0 एस0 डालर 250 और यू0 एस0 डालर 300 क्रमशः या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों दोनों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय और फाईनल के परीक्षार्थियों को भारतीय रुपये 1500 /— रुपये, 1750 /— एवं रुपये 2250 /— एवं रुपये क्रमशः या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा में परीक्षा शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक ग्रुप या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

व्यवसायिक शिक्षा—प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा—द्वितीय और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी पाठ्यक्रम (भाग—प्रथम), इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट और इन्टरनेशनल ट्रेड एवं वर्ल्ड ट्रेड आरगनाईजेसन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को केवल उत्तर अंग्रेजी में ही लिखना है।

जी0 सोमाशेखर
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

गैर-योजनागत

1. राजस्व

प्राप्तियाँ	(राशि रूपयों में)
आदि शेष :	
मुख्यालय :	
अग्रदाय	3,23,600
निवेश	63,50,00,000
बैंक में नकद	
पंजाब नेशनल बैंक, मैदान गढ़ी	3,34,99,574
भारतीय स्टेट बैंक, साकेत	39,78,257
भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग	3,77,214
डाकघर	2,000
	----- 3,78,57,045
रोकड़ बही में अधिक दर्शाई गई राशि	(-) 1,02,65,523
क्षेत्रीय केंद्र :	
अग्रदाय:	1,55,35,213
शुल्क :	
31 मार्च, 2001 को पड़ी धनराशि	2,35,75,591
अनुदान :	
31 मार्च, 2001 को पड़ी धनराशि	3,51,91,479
31 मार्च, 2001 को मार्गस्थ अनुदान	15,00,000
ई. एम. पी. सी .	
31 मार्च, 2001 को पड़ी धनराशि	32,69,613

अग्रदाय	28,000
I. अनुदान और अन्य प्राप्तियाँ	
1. शिक्षा विभाग, मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान	1,50,00,000
2. विद्यार्थियों से प्राप्तियाँ	
विद्यार्थियों से शुल्क	1,26,62,80,515
आवेदन पत्रों की बिक्री	4,28,37,542
विद्यार्थियों से अन्य प्राप्तियाँ	75,14,571
सहभागी संस्थाएँ - शुल्क	10,39,145
अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमलाप	43,88,186
जोड़कर :	
31-03-2002 को क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि	2,94,67,861
घटाकर :	
31-03-2001 को क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि	(-) 2,35,75,591
	1,32,79,52,229
3. प्रकाशनों से प्राप्तियाँ	63,44,845
4. इग्नू की पाठ्यक्रम सामग्री के प्रयोग के लिए कॉपी राइट शुल्क	4,47,950
5. ई.एम.पी.सी प्रचालन से प्राप्तियाँ	
1. टेस्तीकॉफ़र से प्राप्तियाँ	20,20,530
2. किसानों की सुविधाएँ व बाहरी निर्माण कार्य	11,73,590
3. दृश्य/श्रव्य कैसेटों की बिक्री	13,13,264
4. निर्माण, प्रशिक्षण, कार्यशाला से प्राप्तियाँ	1,00,372
	46,07,756
6. भवन भूमे. आवासीय मकानों/सरकारी मकानों/अतिथि गृह आदि से प्राप्त लाइसेंस शुल्क	7,84,382
7. मूल कार्यालयों से प्राप्त पेंशन संबंधी लाभ का पूंजीगत मूल्य	3,40,102
8. इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग से प्राप्तियाँ	23,500

9.	बैंक जमा पर ब्याज	5,94,74,374
10.	दीर्घकालिक अग्रिमों पर ब्याज	3,30,343
11.	स्टाफ से वसूली किया गया बस प्रभार	5,925
12.	विविध प्राप्तियाँ	80,68,649
13.	लीज पर दिए गए मकानों की वसूली	4,000

कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,16,53,99,073



वर्ष 2001-02 की प्राप्ति और अदायगियाँ

गिर-योजनागत

1. राजस्व

अदायगी	(राशि रूपयों में)
I प्रशासनिक व्यय	7,32,14,772
II प्रशासन :	
1. कुलपति कार्यालय	25,48,073
2. समकुलपति कार्यालय	6,12,355
3. योजना और विकास प्रभाग	28,18,233
4. शैक्षिक समन्वय प्रभाग	16,87,692
5. प्रशासन प्रभाग	2,92,52,702
6. वित्त एवं लेखा प्रभाग	1,06,39,902
7. अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ	46,03,524
III. विद्यापीठ :	
1. प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ	1,21,42,446
2. मानविकी विद्यापीठ	99,09,228
3. विज्ञान विद्यापीठ	1,31,88,544
4. सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	2,42,47,253
5. इंजी. एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ	38,92,370
6. सतत शिक्षा विद्यापीठ	70,81,469
7. शिक्षा विद्यापीठ	70,83,162
8. स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ	78,88,725
9. कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्यापीठ	38,10,418

10. विस्तार शिक्षा परिषद	36,23,476
11. संपादन एकक	15,87,317
12. स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्ट्राइड)	52,71,482
13. दूर शिक्षा परिषद	28,87,724
14. शोध अनुदान	23,76,075

IV. प्रभाग :

1. क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	68,48,232
2. क्षेत्रीय केंद्र	
त्रैमासिक अनुदान से व्यय	37,89,38,515
मुख्यालय द्वारा किया गया व्यय	4,80,484
	<hr/> 37,94,18,999
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण केंद्र	
त्रैमासिक अनुदान से किया गया व्यय	3,83,66,404
4. कंप्यूटर प्रभाग	1,04,10,173
5. विद्यार्थी पंजीकरण एवं मूल्यांकन प्रभाग	12,41,61,353
6. पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग	67,92,979
7. सामग्री, मुद्रण एवं वितरण प्रभाग	19,20,40,485
8. निर्माण एवं अनुसंधान प्रभाग	2,01,33,513

V कर्मचारी कल्याण योजना 11,39,717

VI विविध 28,37,467

VII भविष्य निधि और पेंशन 39,10,029

कुल राजस्व अदायगी

1,02,33,17,293

टिप्पणी: व्यय के विस्तृत ब्यौरे के लिए अनुसूची सं. 6 देखें

वर्ष 2001-2002 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ
गैर-योजनागत
2. ऋण, जमा इत्यादि

प्राप्तियाँ	(राशि रूपयों में)
I. जमा:	
प्रतिभूति जमा/बयाना राशि:	4,25,911
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	1,01,445
	----- 5,27,356
II वेतन से वसूली:-	
1. आय कर	1,09,29,148
2. सामान्य भविष्य निधि	3,77,87,678
3. अंशदायी भविष्य निधि	33,81,793
4. सामूहिक बीमा योजना	12,21,693
5. स्टाफ कल्याण निधि	5,05,774
6. शेफ्ट-क्रेडिट सोसाइटी (इग्नू)	72,01,811
7. एल.आई सी/एस.एल.आई/पी.एल.आई.	18,08,580
8. भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)	2,64,375
9. गृह निर्माण अग्रिम (प्रतिनियुक्ति)	1,79,473
10. वाहन अग्रिम (प्रतिनियुक्ति)	17,668
11. लाईसेंस शुल्क/जल प्रभार (प्रतिनियुक्ति)	3,21,581
12. सी जी ई आई एस (प्रतिनियुक्ति)	16,800
13. विविध (प्रतिनियुक्ति)	37,380
14. प्रधान मंत्री राहत कोष	1,23,559
15. जी आई एस के भुगतान के लिए एल आई सी से प्राप्तियाँ	2,84,359
	----- 6,40,81,672

III. अग्रिमों की वसूली

क) भवन निर्माण	24,53,307	
ख) सवारी	26,19,344	
ग) त्यौहार	6,41,350	
घ) कंप्यूटर	6,06,146	
च) प्राकृतिक आपदा	32,200	
	-----	63,52,347

IV. अन्य वसूलियाँ :

1. ठेकेदारों से आय कर	82,17,163
-----------------------	-----------

3V. निम्नलिखित से निधि का अंतरण :

1. योजनागत लेखा से	9,24,04,068	
2. उद्दिष्ट निधि से	11,69,776	
	-----	9,35,73,844
कुल ऋण, जमा आदि		17,27,52,382
कुल राजस्व प्राप्तियाँ		2,16,53,99,073
कुल योग		2,33,81,51,455

वर्ष 2001-2002 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ
गैर-योजनागत
3. ऋण, जमा इत्यादि

अदायगी	(राशि रूपयों में)
I. जमा :	
प्रतिभूति जमा/बयाना राशि/लौटाई गई राशि	4,28,333
II. केन्द्रों को अग्रिम :	
1. विविध अग्रिम (मुख्यालय)	8,94,494
2. विविध अग्रिम (क्षेत्रीय केन्द्र)	59,26,148

	68,20,642
III. प्रेषण (वेतन से वसूलियाँ) :	
1. आयकर	1,09,66,082
2. सामान्य भविष्य निधि	3,77,55,958
3. अंशदायी भविष्य निधि	33,81,293
4. सामूहिक बीमा योजना	12,47,310
5. कर्मचारी कल्याण निधि	5,04,294
6. थ्रैफ्ट क्रेडिट सोसाइटी (इग्नू)	71,90,894
7. एल.आई.सी./एस.एल.आई./पी.एल.आई	17,97,593
8. भविष्य निधि (प्रतिनियुक्ति)	2,64,375
9. भवन निर्माण अग्रिम (प्रतिनियुक्ति)	1,79,473
10. वाहन अग्रिम (प्रतिनियुक्ति)	17,668
11. लाईसेंस शुल्क/जल प्रभार (प्रतिनियुक्ति)	3,21,581
12. सी.जी.ई.आई.एस. (प्रतिनियुक्ति)	16,800

13. विविध (प्रतिनियुक्ति)	37,380	
14. प्रधान मंत्री राहत कोश	1,22,028	
15. जी आई एस के भुगतान के लिए एल आई सी से प्राप्तियाँ	2,75,030	
	-----	6,40,77,759

IV. स्टाफ को अग्रिम

1. अल्पकालिक अग्रिम	6,82,650	
2. ब्याज शुदा अग्रिम	1,17,48,024	
	-----	1,24,30,674

V. अन्य वसूलियाँ :-

1. ठेकेदारों से आय कर		81,58,228
-----------------------	--	-----------

VI. निम्नलिखित को निधि का अंतरण :

1. योजनागत लेखा	10,47,53,748	
2. उद्दिष्ट लेखा	16,75,433	
3. भविष्य निधि लेखा	37,27,196	
4. डी ई पी/डी पी ई पी	20,00,000	
	-----	11, 21,56,377

क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि :-

शुल्क : 31-3- 2002 तक क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि	2,94,67,861
---	-------------

अनुदान : 31-3 2002 तक क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि	3,99,16,639
---	-------------

अग्रदाय	1,46,92,291
---------	-------------

ई एम पी सी के पास पड़ी धनराशि

31-3 -2002 तक पड़ी धनराशि	25,85,588
---------------------------	-----------

अग्रदाय	1,40,000
---------	----------

मुख्यालय के पास पड़ी धनराशि
अंत शेष:-

अग्रदाय 3,36,600

निवेश 79,50,00,000

बैंक में नकद राशि

पंजाब नेशनल बैंक-मैदान गढ़ी	21,37,05,356
भारतीय स्टेट बैंक-साकेत	1,36,78,934
भारतीय स्टेट बैंक-संसद मार्ग	7,47,358
डाकघर	4,91,522
	<hr/> 22,86,23,170

कुल ऋण, जमा इत्यादि 1,31,48,34,162

कुल राजस्व व्यय 1,02,33,17,293

कुल योग 2,33,81,51,455

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियाँ और भुगतान

योजनागत

I. राजस्व

प्राप्तियाँ	(राशि रूपयों में)
-------------	-------------------

आदि शेष - मुख्यालय :

अग्रदाय		13,000*
निवेश		1,00,00,000
बैंक में नकद धनराशि		
पंजाब नेशनल बैंक - मैदान गढ़ी	3,74,13,203	
भारतीय स्टेट बैंक - साकेत	2,91,84,619	
	-----	6,65,97,822
रोकड़ बही में दिखाई गई राशि को घटाकर		8,76,269

क्षेत्रीय केंद्र :

31 मार्च, 2001 को क्षेत्रीय केंद्र के भवनों के लिए जमा राशि	74,897
31 मार्च, 2001 को क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी धनराशि	1,53,93,906
31 मार्च, 2001 को क्षेत्रीय केंद्रों का मार्गस्थ अनुदान	35,374
अग्रदाय	11,18,041

ई एम पी सी :

31 मार्च, 2001 को ई एम पी सी के पास पड़ी धनराशि	65,58,602
अग्रदाय	21,000

I. अनुदान एवं अन्य प्राप्तियाँ

1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग से अनुदान	52,56,00,000

कुल राजस्व प्राप्तियाँ	62,62,88,911

* वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखा के अंत शेष में नहीं दिखाया गया ।

वर्ष 2001-02 की प्राप्तिर्ग और भुगतान

योजनागत

I. राजस्व

अदायगिर्ग	(राशि रूपयों में)
I. मुख्यालय	
1. अनुदान:	
1. मुक्त शिक्षा के संवर्द्धन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अनुदान	11,07,25,500
2. उत्तर-पूर्वी परियोजना के लिए अनुदान	1,58,93,383
	----- 12,66,18,883
II. क्षेत्रीय केंद्र	
त्रैमासिक अनुदान से व्यय	2,54,35,898
III. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण केंद्र	
त्रैमासिक अनुदान से व्यय	5,66,11,348

कुल राजस्व अदायगी	20,86,66,129

नोट: व्यय के विस्तृत ब्यौरे के लिए अनुसूची सं. 7 देखें ।

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियों और अदायगियों

योजनागत

पूँजीगत व्यय

अदायगी		(राशि रूपयों में)
1. विश्वविद्यालय परिसर का विकास		
1. मैदान गद्दी में परिसर का निर्माण		98,38,542
2. खेल गाँव के फ्लैटों में परिवर्द्धन		6,09,164
2. कंप्यूटर हार्डवेयर और संस्थापन		2,99,28,850
3. अन्य उपस्कर		39,10,422
4. पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग		
1. पुस्तकालय की पुस्तकें	59,20,587	
2. पुस्तकालय का फर्नीचर	14,553	
3. पुस्तकालय के उपस्कर	76,523	
	<hr/>	60,11,663
5. इलेक्ट्रानिक मीडिया निर्माण केंद्र		
1. संचार केंद्र के लिए फर्नीचर	3,12,108	
2. स्टूडियो उपस्कर	19,229	
3. अन्य पूँजीगत मदें	<u>4,21,581</u>	7,52,918
ज्ञान दर्शन		
1. भू-स्टेशन ज्ञान दर्शन के लिए उपस्कर		38,12,517
ज्ञान वाणी		
1. उपस्कर		4,50,36,654
2. परामर्श, संस्थापन प्रणाली डिजाइन और एकीकरण		6,60,00,000

3.	सिविल कार्य		
(i)	ट्रोसमिशन स्टूडियो का निर्माण	1,90,00,000	
(ii)	श्रव्य स्टूडियो का निर्माण - सहभागी संस्था	12,81,716	
			13,58,83,805
6.	क्षेत्रीय केंद्र		
1.	फर्नीचर	11,44,746	
2.	उपस्कर	41,15,724	
3.	पुस्तकें	69,883	
			53,30,353
7.	विश्वविद्यालय कार्यालय के लिए फर्नीचर		41,69,069
8.	भारी रैकिंग प्रणाली का संस्थापन		1,12,068
		कुल पूंजीगत व्यय	19,57,93,936

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

योजनागत

II. ऋण, जमा आदि

प्राप्तियाँ

(राशि रूप्यों में)

I. अन्य वसूलिया :

1. आय कर (ठेकेदार)	17,54,302	
2. प्रतिभूति जमा (ठेकेदार)	10,64,113	
3. कर्मचारी कल्याण निधि	310	
4. प्रधान मंत्री राहत कोष	1,480	
	-----	28,20,205

II. निम्नलिखित से अंतरित निधि:

गैर-योजनागत - मुख्यालय	10,47,53,748
------------------------	--------------

कुल ऋण, जमा आदि 10,75,73,953

कुल राजस्व प्राप्तियाँ 62,62,88,911

कुल योग 73,38,62,864

वर्ष 2001-02 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

योजनागत

II ऋण, जमा आदि

अदायगी	(राशि रूपयों में)
I. अन्य संगठनों के पास जमा/अग्रिम:-	
के.लॉ.नि.वि./लो.नि.वि.	14,01,18,181
अग्रिम	
1. मुख्यालय द्वारा	30,10,562
2. क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा	8,62,010
3. ई एम पी सी द्वारा - विविध	50,000
4. ई एम पी सी द्वारा - ज्ञान वाणी	74,14,000
5. ई एम पी सी द्वारा - एन ई एम एफ ओ परियोजना	35,00,000
	1,48,36,572
II. अन्य वसूलियाँ :-	
1. ठेकेदारों से आयकर	14,96,136
2. प्रतिभूति जमा (ठेकेदार)	10,97,313
3. कर्मचारी कल्याण निधि	310
4. प्रधान मंत्री राहत कोष	286
	25,94,045
III. निम्नलिखित को अंतरित निधियाँ :-	
1. गैर योजनागत	9,24,04,068
2. उद्दिष्ट निधि (मुख्यालय)	15,215
	9,24,19,283

IV. क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी राशि:-

31 मार्च, 2002 को क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी राशि	1,42,37,566
---	-------------

31 मार्च, 2002 को क्षेत्रीय केंद्रों का मार्गस्थ अनुदान	42,750
---	--------

अग्रदाय	5,99,616
---------	----------

ई.एम.पी.सी. के पास पड़ी राशि

31 मार्च, 2002 को ई.एम.पी.सी. के पास पड़ी राशि	1,31,97,041
--	-------------

अग्रदाय	21,000
---------	--------

मुख्यालय के पास पड़ी राशि:

अग्रदाय	13,000
---------	--------

बैंक में नकद :

पंजाब नेशनल बैंक - मैदान गढ़ी	4,70,60,317
-------------------------------	-------------

भारतीय स्टेट बैंक - साकेत	42,63,428
---------------------------	-----------

	5,13,23,745
--	-------------

कुल ऋण, जमा आदि	32,94,02,799
-----------------	--------------

कुल राजस्व व्यय	20,86,66,129
-----------------	--------------

कुल पूँजीगत व्यय	19,57,93,936
------------------	--------------

कुल योग	73,38,62,864
---------	--------------

वर्ष 2001-02 का आय एवं व्यय लेखा

गैर-योजनागत

व्यय		(राशि रुपये में)
2000-01		2001-02
6,29,48,059	1. प्रशासनिक व्यय	7,32,99,396
	2. प्रचालन व्यय विद्यापीठों सहित व्याय	
13,60,47,042	क) शैक्षिक गतिविधियाँ (विद्यापीठों सहित)	15,42,64,446
75,40,826	ख) क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	68,48,232
30,50,74,846	ग) क्षेत्रीय केंद्र	37,99,99,292
4,18,34,935	घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं निर्माण केंद्र	3,84,54,004
95,26,063	ड) कंप्यूटर प्रभाग	1,84,10,173
10,21,87,355	च) विद्यार्थी पंजीकरण एवं मूल्यांकन प्रभाग	12,41,61,353
67,35,497	छ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन प्रभाग	67,92,979
9,04,20,549	ज) सामग्री मुद्रण एवं वितरण प्रभाग	20,09,71,161
1,69,52,923	झ) निर्माण एवं अनुरक्षण प्रभाग	2,01,83,839
	ट) दूर शिक्षा परिषद	25,87,724
7,61,244	3. कर्मचारी कल्याण योजना	11,72,717
35,92,284	4. विविध व्यय	20,37,467
43,99,749	5. भविष्य निधि एवं पेंशन	39,10,029
3,46,108	6. अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ	
41,35,81,050	परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वितरण में अंतर्गत व्यय से अधिक आय	39,02,91,243
1,20,19,48,530	कुल योग	1,42,33,84,055

वर्ष 2001-02 का आय एवं व्यय लेखा

गैर-योजनागत

आय			(रुपयों में)
2000-01	लेखा शीर्ष		2001-02
	1. अनुदान		
3,75,00,000	क) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान		1,50,00,000
8,17,025	ख) क्षेत्रीय केंद्रों के भवनों के किराए के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान		
	2. विद्यार्थियों से प्राप्तियाँ		
1,02,43,86,319	क) विद्यार्थियों से शुल्क	1,27,21,72,785	
4,25,91,538	ख) आवेदन पत्रों की बिक्री	4,28,37,542	
69,83,835	ग) विद्यार्थियों से अन्य प्राप्तियाँ	75,14,571	
39,910	घ) सहभागी संस्थाएँ - शुल्क	10,39,143	
16,99,111	च) अंतरराष्ट्रीय गतिविधियाँ	43,88,186	
			1,32,79,52,229
99,99,181	3. प्रकाशनों से प्राप्तियाँ		63,44,845
13,26,313	4. भवनों और अन्य संपत्तियों से आय		7,84,382
11,29,275	5. मूल विभागों से प्राप्त पेंशन लाभों का पूंजीगत मूल्य		3,40,102
4,01,58,367	6. बैंक जमा पर ब्याज		5,94,74,374
3,53,974	7. दीर्घकालिक अग्रिमों पर ब्याज		3,30,343
23,610	8. आई जे ओ एल का अंशदान		23,500
12,25,000	9. इग्नू पाठ्य सामग्री से कॉपीराइट शुल्क		4,47,950
3,900	10. इग्नू स्टाफ से वसूला गया बस प्रभार		5,925
42,233	11. पट्टे पर लिए गए मकानों की बसूली		4,000

77,98,364	12.	ई.एम.पी.सी. प्रचालन से प्राप्तियाँ	46,07,756
2,58,70,575	13.	विविध व्यय	80,68,649
	14.	परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विवरण में अंतरित आय से अधिक व्यय	
1,20,19,48,530	कुल योग		1,42,33,84,055

वर्ष 2001-02 का आय एवं व्यय लेखा

योजनागत

व्यय		(राशि रूपयों में)
2000-01	लेखा शीर्ष	2001-02
	1. प्रचालन व्यय	
1,30,89,429	क) क्षेत्रीय केंद्र	2,54,35,898
2,51,72,059	ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण केंद्र	6,43,65,565
19,02,84,127	2. अन्य संस्थानों को अनुदान	11,07,25,500
1,15,08,560	3. उत्तर-पूर्वी परियोजना	1,58,93,383
6,27,86,300	4. परिसंपत्ति एवं देयताओं के विवरण में अंतर्भूत व्यय से अधिक आय	4,05,33,210
30,28,40,475	कुल योग	25,69,53,556

वर्ष 2001-02 का आय एवं व्यय लेखा

योजनागत

आय		(राशि रूपयों में)
2000-01	लेखा शीर्ष	2001-02
	1. अनुदान	
42,00,00,000	भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान	52,56,00,000
8,00,00,000	उत्तर-पूर्वी परियोजना के लिए अनुदान	
	घटाकर :	
(-) 19,71,59,525	पूँजी निधि में अंतरित धनराशि	(-) 26,86,46,444
	परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विवरण में अंतरित आय से अधिक व्यय	
30,28,40,475	कुल योग	25,69,53,556

31-03-2002 को परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण

देयताएँ

(रुपि सय्यों में)

31-03-2001 को

31-3-2002 को

1,80,35,95,844	1. अनुदानों का पूँजीगत मूल्य आदि शेष	1,80,35,95,844	
	जोड़कर :		
	आय एवं व्यय लेखा से अंतरित- योजनागत	26,86,46,444	
	पिछले वर्ष का समायोजन	(-) 32,994	
		-----	2,07,22,09,294
3,18,15,560	2. उपहार और दान आदि शेष	3,18,15,560	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,16,765	
		-----	3,19,32,325
1,61,565. 51,730	3. गविष्य निधि लेखा योजनागत लेखा गैर-योजनागत लेखा (अनुसूची सं. 1 एवं 2 के अनुसार)	1,61,565 83,950	
29,898	4. सामूहिक बीमा योजना - गैर योजनागत (अनुसूची सं. 1 के अनुसार)	4,191	
4,60,715	5. भ्रष्टाचार के लिए वेतन से की जाने वाली वसूलियाँ गैर-योजनागत लेखा (अनुसूची 1 और 2 के अनुसार)	5,04,563	
	6. देय राशि (अनुसूची सं. 2 के अनुसार)	2,28,354	
5,842	7. सहकारी प्रोपर्टी क्रेडिट सोसाइटी (अनुसूची सं. 1 और 2 के अनुसार)	16,759	
1,82,27,128	8. ठेकेदारों की प्रतिभूति जमा/बयाना राशि (अनुसूची सं. 3 के अनुसार)	1,64,11,774	

2,051	9. वसूली योग्य अग्रिम-प्राकृतिक आपदा	23,751
	10. निधियों के बीच अंतरित राशि	
5,76,294	i) ई.एम.एफ. से गैर-योजनागत	5,76,294
3,26,71,485	ii) गैर-योजनागत से योजनागत	1,23,49,680
	11. व्यय से अधिक आय एवं भुगतान योग्य राशि	
1,17,50,91,122	आदि शेष	1,17,50,91,122
	आय एवं व्यय लेखा से अंतरण	
	गैर-योजनागत	39,02,91,243
	योजनागत	4,05,33,210

		1,60,59,15,575
	12. ई.एम.एफ. अनुदान का पूंजीगत मूल्य	
1,16,77,348	आदि शेष	1,16,77,348
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,73,08,539

		2,89,85,887
10,58,55,713	13. उद्दिष्ट निधि का खर्च न किया गया शेष (अनुसूची 5 के अनुसार)	11,13,21,937
31,06,608	14. प्रतिभूति जमा (बिल से वसूला गया लेकिन प्रतिभूति जमा खाते में अंतरित नहीं)	30,70,986
	15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रवृत्ति	
1,66,603	आदि शेष	1,66,603
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,01,445

		2,68,048
3,18,34,95,416	कुल योग	3,88,40,64,933

31-03-2002 को परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण

परिसंपत्तियाँ

31-03-2001 को	(राशि रुपये में)	31-3-2002 को
---------------	------------------	--------------

1. भूमि और भवन

विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण

23,40,776	क) भूमि	23,40,776
-----------	---------	-----------

ख) विश्वविद्यालय परिसर/क्षेत्रीय कार्यालयों का विकास

44,80,21,066	आदि शेष	44,80,21,066
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	98,38,542
	क्षेत्रीय केंद्रों सहित वर्ष के दौरान समायोजन	7,18,16,111
		52,96,75,719

ग) एशियाई खेल गाँव परिसर में फसलों का अधिग्रहण

4,65,03,365	आदि शेष	4,65,03,365
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,09,164
	अग्रिम का समायोजन	(-) 32,994
		4,70,79,535

74,11,17,930	घ) जापान की सहायता से ई एम पी सी भवन का निर्माण	74,11,17,930
--------------	---	--------------

2. स्टूडियो उपस्कर और जुड़नार (फिटिंग)

15,95,42,428	आदि शेष	15,95,42,428
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,40,810
		15,99,83,238

	ii) भू-स्टेशन - ज्ञान दर्शन के लिए उपस्कर	38,12,517
--	---	-----------

3. ज्ञान बागी			
	i) उपस्कर		4,50,36,654
	ii) परामर्श, संस्थापन प्रणाली डिजाइन और एकीकरण		6,60,00,000
	iii) निर्माण कार्य - ट्रान्समिशन स्टूडियो का निर्माण		1,90,00,000
	iv) निर्माण कार्य - श्रव्य स्टूडियो का निर्माण - सहभागी संस्थान		12,81,716
4. कंप्यूटर हार्डवेयर और संरक्षण			
13,32,42,890	आदि शेष	13,32,42,890	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,99,28,850	
		-----	16,31,71,740
5. अन्ध उपस्कर			
6,35,78,986	आदि शेष	6,35,78,986	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	39,10,422	
	अग्रिम का समायोजन	24,500	
		-----	6,75,13,908
52,28,950	6. विज्ञान प्रयोगशाला उपस्कर		52,28,950
7. पुस्तकालय			
	क) पुस्तकें		
6,52,99,699	आदि शेष	6,52,99,699	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	59,20,587	
	2001-02 के दौरान प्राप्त उपहार	1,16,765	
		-----	7,13,37,051
6,80,520	ख) दृश्य/श्रव्य		6,80,520
	ग) कर्नीयर और उपस्कर		
1,17,94,581	आदि शेष	1,17,94,581	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	91,076	
		-----	1,18,85,657

8. विश्वविद्यालय कार्यालय, अतिथि गृह इत्यादि के लिए फर्नीचर

2,87,77,577	आदि शेष	2,87,77,577	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	41,89,069	
		-----	3,29,46,646

9. ई.एम.पी.सी के लिए फर्नीचर

54,96,216	आदि शेष	54,96,216	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,12,108	
		-----	58,08,324

10. वाहन

1,31,37,435	आदि शेष	1,31,37,435	
	अग्रिम का समायोजन	10,11,897	
		-----	1,41,49,332

11. क्षेत्रीय/अध्ययन केन्द्र**i) फर्नीचर**

4,57,26,717	आदि शेष	4,57,26,717	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	11,44,746	
		-----	4,68,71,463

ii) उपस्कर

5,22,12,274	आदि शेष	5,22,12,274	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	41,15,724	
		-----	5,63,27,998

iii) पुस्तकें

2,63,094	आदि शेष	2,63,094	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	69,883	
		-----	3,32,977

iv) कंप्यूटर प्रयोगशाला

43,29,796	आदि शेष		43,29,796
-----------	---------	--	-----------

33,65,604	उत्तर-पूर्वी परियोजना के लिए पूंजीगत मदें	33,65,604
	12. भारी रैकिंग प्रणाली का संस्थापन - एम पी डी डी	
37,40,855	आदि शेष	37,40,855
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,12,068

		38,52,923
1,10,533	13. शिशु गृह - फर्नीचर एवं उपस्कर	1,10,533
	14. कैटीन	
1,97,804	फर्नीचर	1,97,804
6,87,998	उपस्कर	6,87,998
14,310	15. स्ट्राइड - उपस्कर	14,310
	16. ई एम एफ - उपस्कर	
1,16,77,348	आदि शेष	1,16,77,348
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,73,08,539

		2,89,85,887
7,09,867	17. अन्य विभागों, संगठनों में जमा	7,09,867
	18. चालू निर्माण कार्य के लिए जमा दिल्ली पी डब्ल्यू डी/डी.वी.बी/सी पी डब्ल्यू डी	
13,71,37,062	आदि शेष	13,71,37,062
	वर्ष के दौरान जमा	14,01,18,181
	घटाकर : पूंजीगत व्यय	7,18,16,111

		20,54,39,132
31,006	19. वसूली योग्य राशि (अनुसूची सं० 2 के अनुसार)	
8,444	20. कर्मचारी कल्याण निधि (अनुसूची सं. 1 और 2 के अनुसार)	6,964

21. अग्रिम

4,78,518	त्यौहार अग्रिम	5,09,318
1,05,14,757	सवारी अग्रिम	99,89,593
37,05,763	निजी कंप्यूटर अग्रिम	42,38,977
3,17,36,142	गृह निर्माण अग्रिम	3,77,97,319
9,73,00,467	वसूली योग्य अन्य अग्रिम (अनुसूची सं० 4 के अनुसार)	10,92,81,624

22. निधियों के बीच अंतरित राशि

	i) डी पी ई पी से गैर योजनागत लेखा	20,00,000
3,26,71,485	ii) गैर योजनागत लेखा से योजनागत लेखा	1,23,49,680
11,20,723	iii) ई एम एफ से योजनागत	11,20,723
88,79,277	iv) प्रतिभूति जमा से गैर योजनागत	15,215
5,76,294	v) गैर योजनागत से ई एम एफ	5,05,657
30,00,000	vi) प्रतिभूति जमा से गैर योजनागत	30,00,000
74,250	viii) गैर योजनागत (ई एम पी सी) से परामर्श सेवा	74,250
12,73,107	viii) गैर योजनागत से भविष्य निधि	50,00,303

49,09,891	23. उद्दिष्ट निधि वसूली योग्य धनराशि (अनुसूची सं. 5 के अनुसार)	1,27,57,027
-----------	--	-------------

4,98,58,303	24. कागज का अंतिम स्टॉक (एम पी डी डी प्रभाग)	4,09,68,227
-------------	---	-------------

अंत शेष

गैर-योजनागत लेखा

क्षेत्रीय केंद्र

3,51,91,479	क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ा अनुदान	3,99,16,639
15,00,000	क्षेत्रीय केंद्रों का मार्गस्थ अनुदान	
1,55,35,213	अग्रदाय	1,46,92,291
2,35,75,591	कार्यालयों के पास पड़ा शुल्क और अन्य प्राप्ति	2,94,67,851

	ई .एम. पी. सी.	
32,69,613	ई .एम. पी. सी. के पास पड़ी राशि	25,85,588
28,000	अग्रदाय	1,40,000
	मुख्यालय	
63,50,00,000	निवेश	79,50,00,000
3,23,600	अग्रदाय	3,36,600
	बैंक में नकद	
3,34,99,574	पी एन बी - मैदान गढ़ी	21,37,05,356
39,78,257	एस बी आई - साकेत	1,36,78,934
3,77,214	एस बी आई - संसद मार्ग	7,47,358
2,000	डाक घर	4,91,522

		22,86,23,170
(-) 1,02,65,523	रोकड़ बही में अधिक दर्शाई गई राशि	
	योजनागत लेखा	
	क्षेत्रीय केंद्र	
74,897	क्षेत्रीय केंद्र, कोच्चि के पास राशि	
1,53,93,906	क्षेत्रीय केंद्रों के पास पड़ी राशि	1,42,37,566
35,374	मार्गस्थ अनुदान	42,750
11,18,041	अग्रदाय	5,99,616
	ई एम पी सी	
65,58,602	ई एम पी सी के पास पड़ी राशि	1,31,97,041
21,000	अग्रदाय	21,000
	मुख्यालय	
1,00,00,000	निवेश	
13,000	अग्रदाय	13,000

बैंक में नकद

3,74,13,203	पी एन बी - मैदान गढ़ी	4,70,60,317	
2,91,84,619	एस बी आई - रांकेत	42,63,428	
			5,13,23,745
8,76,269	रोकड़ वही में नहीं ली गई राशि		

उद्दिष्ट निधि

7,50,00,000	निवेश		7,50,00,000
-------------	-------	--	-------------

बैंक में नकद

4,88,547	परियोजना निदेशक - सी वाई पी	4,88,547	
41,38,312	पीएनबी - हौज खास - एसओसीआईएस-एडीआईटी	41,38,312	
8,80,660	पीएनबी - हौज खास - एसओसीआईएस-बीआईटी	8,80,660	
9,910	परियोजना निदेशक - डब्ल्यू ई पी	9,910	
89,28,305	पी एन बी - गै.ग. खाता सं. 1400	81,41,948	
20,49,327	पी एन बी - गै.ग. खाता सं. 844	22,02,556	
	इग्नू वृक्षारोपण - 6069	22,505	
	सी ई एम बी ए/सी ई एम पी ए - 6017	5,473	
	एवआईटी/एड्स - जी थॉमस - 6289	7,55,861	
	आभारी परिसर - बी आई टी - 5722	40,19,065	
	आभारी परिसर - एडीआईटी - 5723 ^a	29,00,073	
			2,35,64,910
(-) 4,810	रोकड़ वही में ली गई अधिक राशि		

प्रतिभूति जमा

1,00,00,000	निवेश		1,00,00,000
	बैंक में नकद		
82,27,128	पी एन बी - मैदान गढ़ी खाता सं. 1700		64,11,774

3,18,34,95,416

कुल योग

3,88,40,64,933

मंजुला वर्मा

विक्रम चन्द्र

सहायक कुलसचिव(लेखा)

वित्त अधिकारी

वर्ष 2001 - 02 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

भविष्य निधि

प्राप्तियाँ

(राशि रूपयों में)

आदि शेष

पं.ने.बैंक खाता सं. एस.एफ.3400

36,20,269

सामान्य भविष्य निधि

अभिदान

3,94,58,037

अंशदायी भविष्य निधि

अभिदान

35,69,665

परिपक्व निवेश

1,30,00,000

पिछली प्राप्त राशि

36,61,886

निपटारे के लिए प्रतीक्षारत ब्याज

86,58,517

कुल योग 7,19,68,374

वर्ष 2001 - 02 की प्राप्तियाँ और अदायगियाँ

भविष्य निधि

अदायगी		(राशि रूपयों में)
सामान्य भविष्य निधि		
अग्रिम/निकासी	2,50,69,218	
अंतिम अदायगी	16,45,724	
		2,67,14,942
अंशदायी भविष्य निधि		
अग्रिम/निकासी	14,28,000	
अंतिम अदायगी	2,66,109	
		16,94,109
निवेश		2,80,00,000
अंत शेष		
प.ने.बैं. लेखा सं. एस.एफ. 3400		1,55,59,323
	कुल योग	7,19,68,374

31-03-2002 को परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण

देयताएँ

(राशि रुपये में)

31-03-2001 को 31-03-2002 को

सामान्य भविष्य निधि

12,84,03,982

आदि शेष

12,84,03,982

जोड़कर :

अंशदान

3,94,58,037

ब्याज

1,24,65,874

घटाकर :

निकासी

2,50,69,218

अंतिम अदायगी

16,45,724

15,36,12,951

अंशदायी भविष्य निधि

2,39,48,173

आदि शेष

2,39,48,173

जोड़कर :

कर्मचारियों का अंशदान

35,69,665

अंशदान पर ब्याज

16,00,857

प्रबंध अंश पर ब्याज

6,82,249

2001-02 के लिए प्रबंध का अंश

8,91,155

घटाकर :

निकासी

14,28,000

अंतिम अदायगी

2,66,109

2,89,97,990

15,23,52,155

कुल योग

18,26,10,941

31-03-2002 को परिसम्पत्तियों और देयताओं का निवृत्तन

परिसम्पत्तियों

31-03-2001 को		(राशि रुपये में)	
		31-03-2002 को	
	निवेश		
14,50,70,000	आदि शेष	14,50,70,000	
	घटाकर : वर्ष के दौरान परिपक्वता	1,30,00,000	
	जोड़कर : वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,80,00,000	
			16,00,70,000
36,61,886	इग्नू से प्राप्त राशि		69,81,618
	अंत शेष		
36,20,269	i) पं.ने.बैं. खाता सं. 3400		1,55,59,323
15,23,52,155	कुल योग		18,26,10,941

वर्ष 2001 - 02 के लेखाओं का विवरण
उद्दिष्ट (विशिष्ट) उद्देश्य निधि लेखा

प्राप्तियाँ	(राशि रूपयों में)
आदि शेष	
निवेश	7,50,00,000
पं.नं. वें.खाता सं. 1400	89,28,305
सी.एस.आई.आर. परियोजना, पी.एन.बी, मैदान गढ़ी नई दिल्ली (लेखा सं. 844)	20,49,327
परियोजना निदेशक, सी.वाई.पी.	4,88,547
परियोजना निदेशक, एस.ओ.सी.आई.एस-ए.डी.आई.टी	41,38,312
परियोजना निदेशक, एस.ओ.सी.आई.एस- बी.आई.टी.	8,80,660
परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.ई.पी.	9,910
सेकड़ बही में ली गई अधिक राशि	(-) 4,810
	1,64,90,251
1. महिला सशक्तिकरण परियोजना व विकास - प्रो0 प्रभा चावला	1,41,00,000
2. कॉमन युवा कार्यक्रम (सी वाई पी) - प्रो0 प्रभा चावला	2,72,000
3. मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकार का सुदृढीकरण एवं प्रशिक्षण - डॉ गोपी नाथ	2,12,500
4. आपदा तैयारी पर समुदाय जागरूकता - भारत सरकार - प्रो0 पी. राहणी	8,15,000
5. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में प्रमाण पत्र - एस ओ एच एस	10,00,000
6. डी ई के यू-इसरो-जेडीसीपी - प्रो0 अनिता दिघे	1,18,625
7. सी ओ एल साक्षरता परियोजना - प्रो0 अनिता दिघे	27,40,000
8. ए एन एम से जी एन एम	46,84,000
9. यूनेस्को चेयर इन टीचर एजुकेशन - प्रो. एस वी एस चौधरी	5,18,172

10.	एच आई वी/एड्स परिवार जीवन शिक्षा में प्रमाण पत्र - डॉ जी थॉमस	7,55,961
11.	कुल गणित राष्ट्रीय बोर्ड - पुस्तकालय साक्षरता	1,20,000
12.	आई. आर. आर. - प्रो० शोभिता जैन	19,52,250
13.	एशियाई महिलाओं की दूर शिक्षा तक पहुंच - आशा कंवर	2,943
14.	विश्वविद्यालय विज्ञान शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण -एस सी गर्ग	3,54,600
15.	आस्ट्रेलिया से प्रकाशन अनुदान - इंडिया कौंसिल - डी गोपाल	25,000
16.	नये लोक प्रशासन पर सम्मेलन - पी. साहनी	10,00,050
17.	ए.ए.ओ.यू. सम्मेलन - एस.सी.गर्ग	34,11,527
18.	सी ई एम बी ए/सी ई एम पी ए कार्यक्रम - सी ओ एल	37,768
19.	अपंगता पर पैतृक जागरूकता पर ऑडियो, वीडियो का निर्माण - रागानुजम	6,00,000
20.	दक्षिण एशिया में आपदा जोखिम को कम करने के लिए विकल्प	84,622
21.	दूरदर्शन, दृश्य कार्यक्रम का निर्माण - सी.ओ.एल. - पी. चावला	6,10,175
22.	आपदा प्रबंध में प्रमाण पत्र - सीओएल - मुद्रण ऑडियो/वीडियो	2,34,803
23.	डी.ओ.पी.टी.के 34 अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला (केंद्रीय और राज्य सरकार) एस.सी.गर्ग और एस.के. पांडा	4,67,000
24.	सी ई एम बी ए/सी ई एम पी ए के लिए सी.ओ.एल. प्रोडक्शन टेरेट बैंक - अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ	60,355
25.	महिला विकास पर कार्यशाला - सीओएल - डॉ. प्रभा चावला	50,000
26.	गवोदय विद्यालय समिति	1,54,428
27.	पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो - ए.एस. नारंग	2,16,500
28.	आभासी परिसर पहल - बी आई टी - 5722	78,09,401
29.	आभासी परिसर पहल - ए डी आई टी - 5723	47,87,495
30.	इग्नू वृक्षारोपण लेखा - प्रो० कपिल कुमार	1,22,500
31.	जन कंप्यूटर शिक्षा - एस ओ सी आई एस	60,825

32.	ए.आर. ऍड पी.जी. विभाग के इतिहास का संपादन एवं मुद्रण - पी साहनी	1,00,000
33.	एडेक्सेल - यूके - एस ओ सी आई एस	25,87,500
34.	व्याज	50,50,970
35.	योजनागत के बीच अंतरण	15,215
36.	गैर-योजनागत के बीच अंतरण	5,05,657
कुल योग		<u>14,71,28,811</u>

**वर्ष 2001-02 के लेखाओं का वितरण
उद्दिष्ट (विशिष्ट) निधि लेखा**

अदायगी	(राशि रूपयों में)
1. महिला सशक्तिकरण परियोजना - प्रभा चावला	
अन्य व्यय	46,79,513
पूंजी	21,02,213
	67,81,726
2. कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम (सी वाई पी) - प्रो. प्रभा चावला	11,16,187
3. ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण - सी ओ एल - प्रो. अनिता दिघे	2,26,362
4. पंचायती राज परियोजना - प्रो. असलम	2,05,866
5. मानव अधिकार परियोजना - प्रो. पांडव नायक	7,07,481
6. वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इग्नू प्रोजेक्ट - एस बां एस एस	3,69,058
7. सरकार और राजनीति पर आस्ट्रेलिया शिक्षा अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम - डॉ. डी. गोपाल	65,347
8. मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकार का सुदृढीकरण और प्रशिक्षण - डॉ. गोपी नाथ	1,00,000
9. अहिंसा, एकता और विश्व शांति पर व्याख्यान - अणुव्रत व्याख्यान	51,295
10. आपदा प्रबंधन में सामुदायिक जागरूकता - भारत सरकार - प्रो. पी. साहनी	2,74,067
11. सी ए डी पी - इग्नू - केयर	65,000
12. ए एन एम से जी एन एम - एस.ओ.एच.एस.	
अन्य व्यय	9,29,841
पूंजी	72,922
	10,02,763
13. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में प्रमाण पत्र - एस ओ एच एस	
अन्य व्यय	85,243
पूंजी	73,315
	1,58,558
14. अस्पताल एवं स्वास्थ्य प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - एस.बी. अरोड़ा	4,134
15. डी.ई.एस.यू.-इसरो-जे डी सी पी - प्रो० अनिता दिघे	70,654
16. सी ओ एल साक्षरता परियोजना - प्रो. अनिता दिघे	

	अन्य व्यय	9,26,753	
	पूँजी	10,01,905	20,08,658
17.	यूनेस्को चेयर - अध्यापक शिक्षा - प्रो. एस.वी.एस. चौधरी		5,81,796
18.	प्रो. जी राम रेडडी स्मृति व्याख्यान		1,63,280
19.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (सी ओ एल) - डॉ० अनिता दिघे		2,150
20.	एमईआईडीएस - एसओएमएस - डॉ. मधुलिका कौशिक		4,19,616
21.	राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड - पुस्तकालय साक्षरता		72,784
22.	आई.आर.आर. - प्रो. शोभिता जैन		
	अन्य	11,72,929	
	पूँजी	4,51,505	16,24,434
23.	सी.ओ.एल. विशेष शिक्षा - स्ट्राइड		
	पूँजी व्यय		5,64,151
24.	विश्वविद्यालय विज्ञान शिक्षण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण - प्रो. एस. सी. गर्ग - एस ओ एस		5,92,650
25.	सार्व देशों के लिए भारतीय छात्रवृत्ति - विदेश मंत्रालय - अंतर. प्रकोष्ठ		77,333
26.	नया लोक प्रशासन पर सम्मेलन - पी. साहनी		8,54,492
27.	ए.ए.ओ.यू. सम्मेलन - एस.सी.गर्ग		
	अन्य	16,88,185	
	पूँजी	6,682	16,94,867
28.	एशियाई क्षेत्रीय गणित अध्यापक शिक्षा - सी ओ एल - एस ओ एस		55,000
29.	सी ई एम बी ए/सी ई एम पी ए कार्यक्रम - सी ओ एल		32,295
30.	स्व शिक्षण ऑडियो प्रशिक्षण मॉड्यूलर		3,18,163
31.	दक्षिण एशिया में जीविका आपदा जोखिम में कमी		25,000
32.	निर्माण, दूरदर्शन, दृश्य कार्यक्रम - सी ओ एल - पी. चावला		5,00,000

33.	आई सी डी ई सम्मेलन		47,568
34.	आपदा प्रबंध में प्रमाण पत्र, मुद्रण, ऑडियो/वीडियो		27,750
35.	डी ओ पी टी के 34 अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला (केन्द्रीय एवं राज्य सरकार) एस सी गर्ग और एस के पांडा		2,32,139
36.	महिला विकास पर कार्यशाला - सी ओ एल -पी. चावला		1,33,725
37.	नवोदय विद्यालय समिति		1,54,190
38.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय		
	अन्य	2,90,539	
	पूँजी	1,18,19,575	
			1,21,10,114
39.	पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो - ए.एस. नारंग		58,244
40.	आभासी परिसर पहल - बी आई टी - 5722		
	अन्य	36,40,563	
	पूँजी	6,64,486	
			43,05,049
41.	आभासी परिसर पहल - ए डी आई टी - 5723		
	अन्य	15,51,941	
	पूँजी	4,71,785	
			20,23,726
42.	झूमू वृक्षारोपण खाता		99,395
43.	मातृ एवं स्वारथ्य देखभाल परियोजना		45,29,980
44.	विविध		55,754
45.	एडेकाल - यूके - एस ओ सी आई एस		40,00,000
	अंत शेष :		
	निवेश		7,50,00,000
	बैंक में नकद		
	परियोजना निदेशक, सी वाई पी	4,88,547	
	परियोजना निदेशक, एस ओ सी आई एस-एडीआईटी	41,38,312	
	परियोजना निदेशक, एस ओ सी आई एस-बीआईटी	8,80,660	
	परियोजना निदेशक, डब्ल्यू ई पी	9,910	

पं.ने.बैं खाता सं. 1400	81,41,948	
पं.ने.बैं खाता सं. 844	22,02,556	
इग्मू वृक्षारोपण - 6069	22,505	
सी ई एम बी ए/सी ई एम पी ए - 6017	5,473	
एच आई वी/एड्स - जी थॉमस ट्र 6289	7,55,861	
आभासी परिसर - बी आई टी - 5722	40,12,065	
आभासी परिसर - ए डी आई टी - 5723	29,00,073	
		2,35,64,910
	कुल योग	14,71,28,811

**इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
के लेखाओं की वर्ष 2001-2002 की लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन**

प्रस्तावना:

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 2 सितम्बर, 1985 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (1985 के सं० 50) के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और संवर्द्धन, शिक्षा तक लोगों की पहुँच को व्यापक बनाने तथा लचीली एवं कम लागत वाली शिक्षा का उन्नयन करने के एक साधन के रूप में की गई थी। विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य विविध साधनों का प्रयोग कर शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाना तथा उसका प्रसार करना, जनसंख्या के बड़े भाग को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना, देश की शिक्षा प्रणाली में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार की प्रणाली के लिए मानकों का समन्वय और निर्धारण करना है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 29 (1) के अनुसार विश्वविद्यालय के लेखे की लेखा-परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत की जाती है।

विश्वविद्यालय का वित्त पोषण मुख्यतः केन्द्र सरकार के अनुदान और इसकी स्वयं की राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2001-2002 में केंद्र सरकार से 5406 लाख रु. (योजनेतर 150 लाख रु. योजनागत 5256 लाख रु.) प्राप्त किए।

केंद्र सरकार से प्राप्त कुल अनुदान की राशि जो 5406 लाख रु. थी, जो विश्वविद्यालय की कुल प्राप्ति अर्थात् 19,490 लाख रु. का 27.74% है। योजनेतर अनुदान 150 लाख रु. कुल योजनेतर प्राप्ति 14,084 लाख रु० का 1.06% और कुल योजनेतर व्यय 10,331 लाख रु. का 1.45 % है।

विश्वविद्यालय ने स्थापना पर 3223.39 लाख रु. व्यय किए, जो कुल योजनेतर व्यय का 31.20% है और कुल व्यय 14,453.08 लाख रु. का 22.30% है।

2. लेखाओं पर टिप्पणी**2.1 बैंक समाधान**

विश्वविद्यालय के पास तेईस बैंक खाते और एक डाकघर खाता है। इनमें से निम्नलिखित नौ बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किये गये थे -

(रु. लाख में)

बैंक खाता	शीर्ष	पिछला बैंक समाशोधन	31.3.02 को वार्षिक लेखानुसार राशि	बैंक विवरण के अनुसार राशि	अंतर अधिक (+) कमी (-)
पं.ने.बै. बचत खाता सं० 1	योजनेततर	अप्रैल, 1999	2,137.05	1,156.64	(+) 980.41
पं.ने.बै. बचत खाता सं० 15694	ईएमएफ (एस ओ सी आई एस - ए डी आई टी)	खाता खोलने की तारीख 8.9.99 से तैयार नहीं किया	41.38	13.54 (20.07.01 को)	(+) 27.84
पं.ने.बै. बचत खाता सं० 15695	ईएमएफ (एस ओ सी आई एस - बी आई टी)	खाता खोलने की तारीख 8.9.99 से तैयार नहीं किया	8.81	47.08 (20.7.01 को)	(-) 38.27
पं.ने.बै. बचत खाता सं० 3400	भविष्य निधि	मार्च, 2000	155.59	157.91	(-) 2.32
पं.ने.बै. बचत खाता सं० 4100	ईएमपीसी (योजनागत)	मार्च, 2001	5.20	3.75	(+) 1.45

आंध्र बैंक बचत खाता सं० 60141	ईएमपीसी (योजनागत)	मार्च, 2001	15.52	51.62	(-) 36.10
आंध्र बैंक बचत खाता सं० 51174	ईएमपीसी (योजनागत)	मार्च, 2001	111.25	358.22	(-) 246.97
पं.ने.बैंक बचत खाता सं० 4050	ईएमपीसी (योजनेतर)	मार्च, 2001	25.86	29.16	(-) 3.30
आंध्र बैंक बचत खाता सं० 51124	ईएमपीसी (प्रतिभूति जमा)	खाता खोलने की तारीख 2.3.2000 से तैयार नहीं किया	वार्षिक लेखा में नहीं दर्शाया गया। साथ ही रोकड़ बही भी नहीं बनाई गई है।	5.71	(-) 5.71

2. बचत बैंक खाता सं० 15694 और 15695 (पं.ने.बैं., होज खास) के बैंक समाधान विवरण खाता खोलने की तारीख 8.9.99 से तैयार नहीं किये गये। इन बैंक खातों को बंद कर दिया गया और शेष राशि को दिनांक 20.7.2001 को क्रमशः बचत खाता सं० 5723 और 5722 (पं.ने.बैं., मैदान गद्दी) में अंतरित किया गया। इन खातों का खाता बंद करने से पहले और बाद भी समाशोधन नहीं किया गया।
3. प्रतिभूति जमा खाता के लिए ई एम पी सी द्वारा संचालित बचत बैंक खाता सं० 51124 (आंध्र बैंक., ग्रीन पार्क) का बैंक समाधान विवरण खाता खोलने की तारीख 2.3.2000 से तैयार नहीं किया गया है।
4. बचत बैंक खाता सं० 1 (पं.ने.बैं., मैदान गद्दी) का बैंक समाधान विवरण मई, 1999 से तैयार नहीं किया गया है। यह विश्वविद्यालय का मुख्य खाता है, जिसमें 980.41 लाख रुपए का बड़ा अंतर है।
5. ई एम पी सी द्वारा संचालित बचत बैंक खाता सं० 60141, 51174 (आंध्र बैंक., ग्रीन पार्क) और बचत खाता सं० 4100 और 4050 (पं.ने.बैं., मैदान गद्दी) के खातों का बैंक समाधान अप्रैल, 2001 से तैयार नहीं किया गया है।
6. भविष्य निधि खाते के लिए संचालित बचत बैंक खाता सं० 3400 (पं.ने.बैं., मैदान गद्दी) का बैंक समाधान अप्रैल, 2000 से तैयार नहीं किया गया है।
7. बचत बैंक खाता सं० 5723 और 5722 (पं.ने.बैं., मैदान गद्दी) की रोकड़ बही, जिसमें बचत खाता सं० 15694 और 15695 में जमा शेष राशि को 20 जुलाई, 2001 को अंतरित किया गया था, उन्हें 1 अक्टूबर, 2001 से 12.05 लाख रु० और 19.86 लाख रु० के आदि शेष से संचालित किया गया था। 1 अक्टूबर, 2001 से पहले की रोकड़ बही लेखा-परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।
8. वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखा में दर्शाए गए 31 मार्च, 2002 तक के संबद्ध बैंक समाशोधन विवरण की जाँच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं -
 - (i) विश्वविद्यालय द्वारा जारी 1768.47 लाख रु० की राशि के बैंकों का 31 मार्च, 2002 तक नकदीकरण नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 1998-99 से 2001-2002 तक की अवधि के 38.75 लाख रु० के बैंक 30 जून, 2002 तक अभी भी बकाया हैं। छः माह से अधिक पुराने बैंकों की वैधता समाप्त हो चुकी है, इन्हें रोकड़ बही में जमा कराया जाना चाहिए था।
 - (ii) बैंकों ने 31 मार्च, 2002 तक 93.82 लाख रु० के असंबद्ध जमा और विविध जमा की अनुमति दी थी। विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के 87.82 लाख रु० के असंबद्ध और विविध जमा 30 जून, 2002 तक अभी भी बकाया हैं।
 - (iii) विश्वविद्यालय ने 1180.36 लाख रु० की राशि के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए थे लेकिन बैंक द्वारा 31 मार्च, 2002 तक तदनुसृत क्रेडिट नहीं दिये गए। इनमें से बैंकों द्वारा 30 जून, 2002 तक 39.15 लाख रु० के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट भी क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इनमें से 31.55 लाख रु० की राशि के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट एक वर्ष से अधिक पुराने थे।

- (iv) 142.33 लाख रु० की राशि के असंबद्ध/विविध डेबिट थे। 30 जून 2002 तक बैंक द्वारा 140.05 लाख रु० के त्रुटिपूर्ण डेबिट की निकासी नहीं की गई और यहाँ तक कि 1997-98 के त्रुटिपूर्ण डेबिट बकाया हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इन डेबिटों का विश्लेषण करने और अशुद्ध डेबिटों की निकासी करने की दृष्टि से बैंक से संपर्क करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए।

2.2 बैंक में 50.26 लाख रु० की नकदी को गलत दर्शाना

1. बचत बैंक खाता सं० 15694 (पं.पे.बैं - होज खास, एस ओ सी आई एस - ए डी आई टी) और खाता सं० 15695 (पं.पे.बैं - होज खास, एस ओ सी आई एस - बी आई टी) 20.7.2001 को बंद कर दिए गए थे और 41.38 लाख रुपये की शेष राशि और 8.81 लाख को क्रमशः बचत बैंक खाता सं० 5723 और 5722 (पंजाब नेशनल बैंक) में अंतरित किया गया था। लेकिन "बैंक में नकदी" शीर्ष के अंतर्गत तुलन-पत्र में परिसंपत्ति की तरफ यह देखा गया कि उपर्युक्त लेखाओं को बंद करने के बावजूद बंद लेखाओं अर्थात् पी एन बी होज खास में शेष राशि अभी भी दर्शाई गई थी जबकि उन्हें खाता सं० 5723 और 5722 में दिखाया जाना चाहिए था।
2. 4.88 लाख रु० की राशि को "परियोजना निदेशक-सी वाई पी" (पं.ने.बैं सी.ए. सं० 483) के सामने "बैंक में नकद" दिखाया गया है, जबकि रोकड़ बही में 31 मार्च, 2002 को शेष राशि 4.81 लाख रुपये दर्शाई गई है। इस प्रकार रोकड़ बही और बैंक खाते में 7,000 रु० का अंतर था।
3. 9,910 रु० की राशि को "परियोजना निदेशक-डब्ल्यू ई पी" (पं.ने.बैं सी.ए. सं० 515) के सामने "बैंक में नकद" दिखाया गया है, जबकि रोकड़ बही में 31 मार्च, 2002 को शेष राशि 10,000 रु० दर्शाई गई है। इस प्रकार रोकड़ बही और बैंक खाते में 90 रु० का अंतर था।

इस प्रकार, परिसंपत्ति "बैंक में नकदी" को 50.19 लाख रु० (41.38 लाख + 8.81 लाख) अधिक दर्शाया गया है।

2.3 बैंक में नकदी न दिखाना

विश्वविद्यालय की इकाई ई एम पी सी का आंध्र बैंक, ग्रीन पार्क शाखा, नई दिल्ली में 2 मार्च 2000 से प्रतिभूति जमा लेखा रखने के लिए बचत खाता सं० 51124 था। खाता खोलने की तारीख से ई एम पी सी द्वारा उपर्युक्त खाते के लिए रोकड़ बही का अनुस्क्षण नहीं किया जा रहा था।

चूंकि रोकड़ बही का अनुस्क्षण नहीं किया जा रहा था, इसलिए 31 मार्च, 2002 को बैंक में पड़ी 5.71 लाख रु० की राशि को (जैसा कि बैंक द्वारा जारी विवरण में दिखाया गया था) वार्षिक लेखा में नहीं दर्शाया गया और परिसंपत्ति को 5.71 लाख रु० कम दिखाया गया था। इस प्रकार वार्षिक लेखों में कथित बैंक खाते में पड़े हुए शेष न दर्शाने से, परिसंपत्ति को 5.71 लाख रुपये कम दर्शाया गया।

2.4 9.19 लाख रु. की प्रतिभूति जमा को न दिखाना

ई एम पी सी इकाई द्वारा 39 पार्टियों से प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त 9.19 लाख रु. की राशि 31 मार्च, 2002 तक बकाया थी। पार्टियों को छोड़ी जाने वाली बकाया राशि 1996-97 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थी।

उपर्युक्त देयता को विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार देयता को 9.19 लाख रु० कम दिखाया गया।

2.5 परिसंपत्ति रजिस्टर का अनुस्क्षण न किया जाना

विश्वविद्यालय के पास 31 मार्च, 2002 को 20,722 लाख रु० की परिसंपत्ति थी। लेख परीक्षा में इन परिसंपत्तियों की मूल्यांकन की परिशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा परिसंपत्ति रजिस्टर का अनुस्क्षण नहीं किया जा रहा था। परिसंपत्ति रजिस्टर में 2001-2002 के दौरान की गई केवल 338 लाख रु० की खरीद के विवरण ही दिखाए गए थे। परिसंपत्तियों, भंडारों और स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रति वर्ष अपेक्षित है, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक इस कार्य को नहीं किया गया।

2.6 मूल्यहास

यह देखा गया कि परिसंपत्ति लेखा में परिसंपत्तियों का बही मूल्य दर्शाया गया था और लुप्तप्राय, अप्रयुक्त और बेकार परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया गया था और मूल्यहास को पूंजी लेखा से तदनुरूप हास में नहीं लिया गया था। इस प्रकार, पूंजी लेखा और परिसंपत्ति लेखा को अधिक दिखाया गया तदनुसार उनके प्रबन्ध में स्पष्ट चित्रण पेश नहीं किया गया। तथ्यों को लेखा टिप्पणी में दिखाया जाना चाहिए था जिसे किसी भी तरह लेखा में संलग्न नहीं किया गया।

2.7 बेकार घोषित किए गए वार्षिक लेखा में दिखाई गई 5 लाख रु. की निपटाई गई परिसंपत्तियाँ (फर्नीचर)

विश्वविद्यालय ने 4,99,552 रु. के अप्रयोज्य फर्नीचर के सामान को बेकार घोषित किया था और इसे 30,100 रु. में नीलाम कर दिया था। अब 329.46 लाख रु. की परिसंपत्ति “विश्वविद्यालय के कार्यालय, अतिथि गृह इत्यादि के लिए फर्नीचर” के अंकित मूल्य को 5 लाख रु. के बेकार घोषित फर्नीचर के मूल्य को कम कर बिना वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है। इस प्रकार, परिसंपत्ति (विश्वविद्यालय के कार्यालय, अतिथि गृह इत्यादि के लिए फर्नीचर) को 5 लाख रु. अधिक दिखाया गया है।

2.8 मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोत्साहन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अनुदान की राशि में अंतर

संस्थानों से संबंधित “शोध परियोजना अनुदान” में 0.55 लाख रु० का अंतर था। लेखा के साथ संलग्न अनुसूची 7 के अनुसार, शोध परियोजना के लिए 1.35 लाख रु. की राशि का अनुदान दर्शाया गया था जबकि अनुदान रजिस्टर के अनुसार, 1.90 लाख रु. अनुदान के रूप में दिए गए थे।

2.9 मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोत्साहन के लिए अन्य विश्वविद्यालय/संस्था को अनुदान की राशि को गलत दर्शाना

अनुसूची 7 के अनुसार, विश्वविद्यालय ने 2001-02 के दौरान “अन्य संस्थानों को राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोन्नयन के लिए” 776.71 लाख रु. अनुदान दिए। बही के अनुसार इस राशि में आई डी ई ए सम्मेलन के 1 लाख रु० का व्यय और 4,500 रु. का खर्च न किया गया अनुदान सम्मिलित था। इस प्रकार 775.75 लाख रु. के अनुदान को दिखाने की बजाए 776.71 लाख रु. (776.71 - 1.00 + 0.04) के अनुदान को प्राप्ति और अदायगी लेखा (योजनागत) में गलत दर्शाया गया था। साथ ही “दूर शिक्षा परिषद” (विश्वविद्यालय का एक एकक, जो अनुदान देता है) के रिकॉर्ड के अनुसार 775.75 लाख रु. की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी।

इस प्रकार 0.96 लाख रु. की अधिक राशि (776.71 - 775.75) को योजनागत लेखा में अदायगी की तरफ दिखाया गया।

2.10 अनुदान (2466.12 लाख रु.) का उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्राप्त न होना

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2001-02 (मार्च, 2002) के दौरान प्राप्ति एवं अदायगी लेखा (योजनागत) के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रोन्नयन के लिए 1107.25 लाख रु अनुदान के रूप में दिए। अनुदान प्राप्त संस्थानों से खर्च की गई राशि के समर्थन में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुए थे। विश्वविद्यालय की बही में अदा की गई राशि को अंतिम व्यय के रूप में मान लिया गया है जबकि अनुदान प्राप्त संस्थान द्वारा खर्च की गई राशि के समर्थन में प्रलेख के रूप में कोई प्रमाण नहीं दिया गया।

2001-02 से पहले दी गई 1358.87 लाख रु. की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका विवरण इस प्रकार है -

(रु. लाख में)

अनुदान का नाम	लक्षित पड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र				
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	कुल
राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	85.72	33.70	144.37	450.21	714.00
राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को असुपुर्द अनुदान	5.50	--	--	16.72	22.22
पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों को विकास अनुदान	--	25.30	152.69	444.66	622.65
	91.22	59.00	297.06	911.59	1358.87

2.11 खर्च न किया गया अनुदान

मंत्रालय से प्राप्त योजनागत अनुदान में से 31 मार्च 2002 को विश्वविद्यालय के पास 788.01 लाख रु० की राशि बिना खर्च किए शेष थी। इस राशि को तुलन-पत्र के देयता पक्ष में अलग से दिखाने की बजाए इसे व्यय से अधिक आय के साथ मिला दिया गया।

पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में भी इसी प्रकार का प्रेक्षण किया गया था और इसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन वर्ष 2001-02 के लेखा में इस प्रेक्षण की अनुपालना नहीं दिखाई गई।

2.12 उत्तर-पूर्वी परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 मार्च, 2000 को उत्तर-पूर्वी राज्यों के शैक्षिक विकास के लिए 800 लाख रु० का अनुदान दिया था। इसमें से 149.00 लाख रु० वर्ष 2000-01 में और 194.00 लाख रु० चालू वर्ष 2001-02 में अर्थात् कुल राशि में से 343 लाख रु० खर्च किए गए।

अनुदान की सेवा-शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय, अनुदान में से खर्च की गई राशि के लिए खाते का समुचित ढंग से अनुस्क्षण करेगा और इस अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के लिए जी एफ आर-19 में एक रजिस्टर का अनुस्क्षण करेगा।

इस अनुदान में से परिसंपत्तियों के निर्माण पर किए गए खर्च का लेखा-परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि अपेक्षित रिकॉर्ड का अनुस्क्षण उन संबंधित उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा किया गया था, जिन्हें अनुदान दिया गया था और इससे संबंधित सूचना विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं थी।

2.13 देयताओं को कम और आय को अधिक दिखाना (3.40 लाख रु०)

कर्मचारियों को देय उनके मूल कार्यालयों से प्राप्त पेंशन लाभों के पूंजीगत मूल्य के रूप में प्राप्त 3.40 लाख रु० की राशि को आय माना गया और इसे विश्वविद्यालय के गैर-योजनागत लेखा में सम्मिलित कर दिया गया जबकि इसे तुलन पत्र में देयता की तरफ दिखाया जाना चाहिए था। इस प्रकार आय को अधिक दिखाया गया और देयता को 3.40 लाख रु० कम दिखाया गया।

विश्वविद्यालय ने सितम्बर, 2002 में बताया था कि राशि को गैर-योजनागत में प्राप्ति के रूप में दिखाया गया था क्योंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन गैर-योजना से दिया जाता है। राशि को गैर-योजनागत में प्राप्ति में दिखाना सही है लेकिन प्राप्ति और अदायगी लेखा से राशि को तुलन पत्र में देयता में दिखाया जाना चाहिए था क्योंकि कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति पर इसका भुगतान किया जाता है।

2.14 निवेश - योजनागत निधि से अर्जित ब्याज को गैर-योजनागत में गलती से जमा करना (17.38 लाख रु०)

योजनागत निधि से भारतीय स्टेट बैंक, साकेत में किया गया 100 लाख रु० का निवेश 27 मई, 2001 को परिपक्व हो गया था और इस राशि की परिपक्वता पर 17.38 लाख रु० का ब्याज अर्जित किया गया। उक्त ब्याज की राशि को गलती से योजनागत लेखा की बजाय गैर-योजनागत लेखे में जमा किया गया।

2.15 जमा कार्य

जमा कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग/दिल्ली विद्युत बोर्ड/अन्य निर्माण एजेंसियों को अग्रिम के रूप में दी गई 2054.39 लाख रु० की राशि 31 मार्च, 2002 तक बकाया थी। रिकॉर्डों की जाँच से पता चला कि 558.03 लाख रु० की राशि पिछले 5 से 10 वर्षों से और 475.35 लाख रु० पिछले 5 वर्षों से लम्बित हैं।

दिल्ली विद्युत बोर्ड को 1994-95 में 117.91 लाख रु० का अग्रिम 1034.53 (11 के वी) के अतिरिक्त भार के लिए दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण केंद्र की विद्युत आपूर्ति असमायोजित रही जबकि 1995-96 में काम पूरा हो चुका था।

अग्रिम राशि का समायोजन करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

2.16 विविध प्राप्तियों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

प्राप्ति और अदायगी लेखा (गैर-योजनागत) में 80.69 लाख रु. की विविध प्राप्तियाँ दिखाई गई हैं। खाते की जाँच से पता चला कि इसमें अनेक ऐसी प्रविष्टियाँ हैं, जो विविध प्राप्तियों से संबंधित नहीं हैं।

- 1) खाता लेखे में बैंक समाधान से सम्बंधित, असम्बद्ध डेबिटों पर बैंक एडवाइसिस से सम्बन्धित 21.95 लाख रु. का भुगतान दर्शाया गया है।
- 2) यह बैंक समाधान से संबंधित असम्बद्ध क्रेडिट की 67.31 लाख रुपये की प्राप्तियाँ दर्शाता है।
- 3) "यह स्पष्ट नहीं कि धनराशि किस शीर्ष से संबंधित है " के कथन के साथ 19.98 लाख रु. की प्राप्तियाँ भी दर्शाता है।

यह प्राप्तियाँ और भुगतान संबंधित शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए जाने चाहिए। इस प्रकार विविध प्राप्तियों के रूप में धनराशि ठीक नहीं दर्शाई गई।

2.17 विद्यार्थियों से प्राप्तियाँ

वर्ष 2001-02 के गैर-योजनागत (राजस्व) के प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार, विश्वविद्यालय ने वर्ष 2001-02 के दौरान विद्यार्थियों से 12662.81 लाख रु. शुल्क के रूप में प्राप्त किए थे। इस धनराशि की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या संबंधी जानकारी, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, मुख्यालय/क्षेत्रीय केंद्रों में पाठ्यक्रमानुसार प्राप्त करने योग्य शुल्क, सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में कुल देय शुल्क, कुल प्राप्त शुल्क और बकाया आदि के विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। परन्तु 29 क्षेत्रीय केंद्रों में से 15 क्षेत्रीय केंद्रों की उपर्युक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार इस सूचना के अभाव में धनराशि की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी।

2.18 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण केंद्र के संचालन से प्राप्तियाँ

वर्ष 2001-02 के गैर योजनागत प्राप्ति और भुगतान लेखा (राजस्व) में ई एम पी सी संचालन से निम्नलिखित प्राप्तियाँ दिखाई गई थी:

	(रु.)
1. टेसीकांफ्रेंसिंग से प्राप्तियाँ	20,20,530
2. सुविधा का किराया/बाहरी निर्माण	11,73,590
3. आडियो/वीडियो कैसेटों की बिक्री	13,13,264
4. निर्माण/प्रशिक्षण/कार्यशाला से प्राप्तियाँ	1,00,372
	46,07,756

इस धनराशि की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि उपर्युक्त राजस्व प्राप्तियों से संबंधित बड़ा चिट्ठा/रजिस्टर लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.19 प्रेषण**i) कटौतियों का प्रेषण**

विश्वविद्यालय के स्टाफ के वेतन से आयकर, एल आई सी, प्रधानमंत्री सहायता कोष आदि के लिए कटौतियाँ प्रेषित करनी आवश्यक हैं। 31 मार्च 2002 तक निम्नलिखित कोषों का प्रेषण होना बाकी था। इस राशि को तत्काल जमा कराने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(रु. में)				
	लेखा शीर्ष	वसूलियां	प्रेषण	प्रेषण के लिए शेष
1.	भविष्य निधि	4,11,69,471	4,11,37,251	32,220
2.	स्टाफ कल्याण निधि	5,05,774	5,04,294	1,480
3.	शिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी	72,01,811	71,90,894	10,917
4.	एल आई सी	18,08,580	17,97,593	10,987
5.	एल आई सी से प्राप्तियाँ	2,84,359	2,75,030	9,329
6.	प्रधान मंत्री सहायता कोष	1,23,559	1,22,028	1,531
7.	आयकर संविदाकार	82,17,163	81,58,228	58,935

ii) अधिक प्रेषण

कतिपय मामलों में अधिक वसूलियों का प्रेषण किया गया और कुछ अन्य मामलों में पूर्व वर्षों में किया गया अधिक प्रेषण चालू वर्ष के दौरान प्रेषण करने में समायोजित नहीं किया गया।

(रु. में)						
	लेखा शीर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	भुगतान/प्रेषण	अंत शेष	टिप्पणी
1.	आयकर	11145	10929148	10966082	(-) 25789	अधिक प्रेषण किया गया
2.	वाहन अग्रिम	(-) 918	17668	17668	(-) 918	पूर्व वर्षों के अधिक प्रेषण का समायोजन नहीं किया गया
3.	आयकर संविदाकार	(-) 165622	8217163	8158228	(-) 106687	पूर्व वर्षों के अधिक प्रेषण का समायोजन नहीं किया गया

2.20 समायोजन के लिए 1092.82 लाख रु० का अग्रिम

विश्वविद्यालय के पास 31 मार्च 2002 को विभिन्न पक्षों के साथ समायोजन के लिए कुल 1092.82 लाख रु० के अग्रिम थे। पूर्व लेखाओं के अनुसार 973/- लाख रु० के अग्रिम लंबित थे और 2001-02 के दौरान 216.57 लाख रु० का भुगतान किया गया, जिसमें से केवल 96.76 लाख रु० का समायोजन 2001-02 के दौरान किया गया था।

इन अग्रिमों की अवधि के अनुसार लंबितता, लेखा परीक्षा में निश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा इन अग्रिमों का वर्षानुसार, पक्षकारों के अनुसार विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

2.21 आंकड़ों में अंतर (अग्रिम)

- i) लेखाओं में दर्शाए गए और अग्रिमों के बड़े चिट्ठे में लिए गए आदि शेष में नीचे दिए गए विवरणानुसार अंतर था:-

(रु. लाख में)			
लेखा शीर्ष	लेखाओं के अनुसार आदिशेष	बड़े चिट्ठे के अनुसार आदिशेष	अंतर
गृह निर्माण अग्रिम	317.36	316.67	0.69
निजी कंप्यूटर	37.05	37.51	(-) 0.46

- ii) विभिन्न अग्रिमों के लिए वसूली गई धनराशि में खाता बही और बड़े चिट्ठे में दर्शाई गई धनराशि के बीच अंतर था:-

(रु. लाख में)			
लेखा शीर्ष	खाता बही के अनुसार वसूली गई धनराशि	बड़े चिट्ठे के अनुसार वसूली गई धनराशि	अंतर
निजी कंप्यूटर	6.06	6.02	0.04
कार अग्रिम	15.76	15.44	0.32
स्कूटर अग्रिम	10.08	9.38	0.70

बड़े चिट्ठे और खाता बही के लेखाओं के समाधान की आवश्यकता है।

2.22 भविष्य निधि लेखा**(i) आंकड़ों में अंतर**

पिछले वर्ष के अंत शेष को त्रुटिपूर्वक आगे ले जाने के कारण, अथ शेष में निम्न प्रकार से अंतर पाया गया:
(आंकड़े ₹ में)

	पिछले वर्ष के वार्षिक लेखा के अनुसार अंत शेष	वर्तमान वार्षिक लेखा में लिया गया आदि शेष	अंतर
सामान्य भविष्य निधि	12,76,77,346	12,84,03,982	(-)7,26,636
अंशदायी भविष्य निधि	2,39,51,375	2,39,48,173	3,202

(ii) भविष्य निधि लेखा और भविष्य निधि बड़े चिट्ठे के आंकड़ों में अंतर:

बड़े चिट्ठे में अग्रिम/निकासी और अंशदान शीर्ष तथा भविष्य निधि लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों में नीचे दिए गए विवरणानुसार अंतर था:-
(आंकड़े ₹ में)

	भविष्य निधि लेखा के अनुसार	बड़े चिट्ठे के अनुसार	अंतर
अंशदान	3,94,58,037	3,89,88,107	4,69,930
अग्रिम/वापसी	2,50,69,218	2,48,74,218	1,95,000

(iii) भविष्य निधि देयता मुख्य लेखा में नहीं दर्शाई गई (69.82 लाख ₹)

भविष्य निधि लेखा के तुलनपत्र के परिसंपत्ति पक्ष में 69.82 लाख ₹ की धनराशि इग्नू से प्राप्त करनी दर्शाई गई है। फिर भी, यह धनराशि मुख्य लेखा में देयता रूप में नहीं दर्शाई गई, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की समान राशि को कम दिखाया गया।

(iv) परिसंपत्ति और देयताओं के बीच अंतर का समाधान न होना

पिछले वर्ष के लेखाओं में परिसंपत्ति और देयताओं में 7.23 ₹ का अंतर था जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इंगित किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में, विश्वविद्यालय ने बताया था कि अंतर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी, चालू वर्ष के लेखाओं में इस अंतर का समन्वयन नहीं किया गया है।

2.23 उद्दिष्ट निधि (विशिष्ट प्रयोजन परियोजनाएं)

विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखाओं से संलग्न अनुसूची सं. 5 के अनुसार 89 उद्दिष्ट विशिष्ट परियोजनाएँ हैं। सभी परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2002 तक कुल उपलब्ध और वसूली योग्य धनराशि क्रमशः 1113.22 लाख ₹ और 127.57 लाख ₹ थी। इन परियोजनाओं के संबंध में व्यय नियंत्रण रजिस्टर का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं किया गया और वर्ष के अंत में बंद भी नहीं किया गया।

**(2) वार्षिक लेखाओं में और व्यय नियंत्रण रजिस्ट्रों में दर्शाए गए भुगतान कुछ मामलों में आपस में मेल नहीं खाते।
(आंकड़े ₹ में)**

परियोजना का नाम	वार्षिक लेखाओं के अनुसार भुगतान	व्यय नियंत्रण, रजिस्टर के अनुसार भुगतान	अंतर
एम ई आई डी एस/ एस ओएम एस	419616	16817	402799
स्वैच्छिक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था	1624434	1658675	3424

(3) वर्ष 2001-02 में 31 परियोजनाओं में कोई लेन-देन नहीं हुआ, क्योंकि अथ शेष और अंत शेष में समान धनराशि दर्शाई गई थी। साथ ही पिछले 2/3 वर्षों में 20 परियोजनाओं के संबंध में कोई गतिविधि नहीं हुई। प्रायोजक एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने की स्थिति भी नहीं प्रस्तुत की गई।

(4) पिछले वर्ष की रिपोर्ट के पैरा 2.8 में यह बताया गया था कि के ओ यू परियोजना (ई एम पी सी) के संबंध में उपलब्ध 59.56 लाख रु० का शेष अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, जिससे अथ और अंत शेष को कम दिखाया गया जिसके लिए विश्वविद्यालय ने कहा कि विस्तृत पुनर्मुद्रण तैयार किया जाएगा और अगली लेखा परीक्षा में जमा किया जाएगा। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.24 प्रतिभूति जमा

आंकड़ों में अंतर

प्रतिभूति जमा रिकॉर्डों (सेकड़ पुस्तिका, खाता बही) में दर्शाए गए अथ शेष और प्राप्तियों तथा लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों में नीचे दिए गए विवरणानुसार अंतर था:

	प्रतिभूति जमा रिकॉर्डों के अनुसार	वार्षिक लेखाओं के अनुसार	(आंकड़े रु. में)
अथ शेष	1822714.50	18227.28	20.50
प्राप्तियाँ	20996065	20996085	20

प्रतिभूति जमा लेखा में न दर्शाई गई धनराशि

30.17 लाख रु० की देयताएँ “प्रतिभूति जमा (बिलों से वसूली गई, परन्तु प्रतिभूति जमा लेखा में अंतरित नहीं की गई)” में दर्शाई गई हैं। विश्वविद्यालय ने प्रतिभूति जमा को अंतरित न करने का कारण और अवधि तथा संबंधित कार्य का विवरण नहीं भेजे। यह धनराशि वर्ष 1999-2000 से लंबित है।

2.25 पुस्तकालय की पुस्तकों का अधिक बताया जाना

वर्ष 2001-2001 के दौरान 59.21 लाख रु० की खरीदी गई पुस्तकों और 1.17 लाख रु० के प्राप्त उपहारों सहित 31 मार्च 2002 को तुलन पत्र में पुस्तकालय की पुस्तकें 713.37 लाख रु. की दर्शाई गई हैं। पुस्तकालय के रिकॉर्डों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2001-02 के दौरान 57.04 लाख रु० की 21798 पुस्तकें खरीदीं। इस प्रकार पुस्तकालय की पुस्तकों पर 2.17 लाख रु० अधिक बताए गए।

2.26 कागज की खरीद का अधिक बताया जाना

वर्ष 2001-02 के दौरान प्राप्ति और भुगतान लेखा (योजनेतर) की अनुसूची 6 में कागज की खरीद पर 795.03 लाख रु० की राशि का व्यय दर्शाया गया है, परन्तु सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाग (एम पी डी डी) के रिकॉर्डों के अनुसार कागज की खरीद पर 795.02 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई। इस प्रकार कागज की खरीद एवं भुगतान लेखे (योजनेतर) में 0.01 लाख रु० अधिक दिखाए गए।

2.27 भंडार में पड़े प्रकाशनों का मूल्य लेखाओं में नहीं लगाया गया

विश्वविद्यालय में एक विपणन प्रकोष्ठ है जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर विविध पाठ्यक्रम सामग्री की बिक्री करता है। विश्वविद्यालय से बिक्री के लिए उपलब्ध अध्ययन सामग्री की कीमत वर्ष के दौरान बेची गई सामग्री और वर्ष के अंत में अंतिम भंडार आदि का विवरण मांगा गया था। लेखा परीक्षा को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी प्राप्ति और भुगतान लेखा में 63.45 लाख रु० के प्रकाशनों से प्राप्तियों के रूप में दिखाए गए परन्तु 31 मार्च 2002 को भंडार में पड़े प्रकाशनों की राशि न तो उपलब्ध कराई गई और न ही तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाई गई।

2.28 निधियों के मध्य राशि का अंतरण

विश्वविद्यालय लेखा के एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का बार-बार अंतरण करता रहा है। तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष और इन निधियों के खाता बही लेखा से पता चलता है कि तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया गया है कि 240.66 लाख रु० की राशि लेखा/निधियों के विभिन्न शीर्षों से लेखाओं/निधियों के अन्य शीर्षों में अंतरित की गई। इस तरह के अंतरण

अनुदान-संस्वीकृति की उन शर्तों के विपरीत हैं, जिनमें यह बताया गया है कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए संस्वीकृत रकम केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी।

2.29 निजी लेनदेन

सरकारी अनुदान/विश्वविद्यालय की निधियों से संबंधित लेन-देन केवल इसके वार्षिक लेखाओं में दर्शाए जाने चाहिए। तथापि, निजी पार्टियों (ड्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी इन्गू, बाह्य सोसाइटी) से लेन देन जो विश्वविद्यालय के मामलों से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, लेखाओं में दर्शाया गया था। भविष्य में वार्षिक लेखाओं में ऐसा लेन देन नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

इसे पिछले वर्ष की रिपोर्ट के पैरा सं. 2.17 में भी निर्दिष्ट किया गया, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

2.30 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखागत टिप्पणियों को वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न नहीं किया गया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने वार्षिक लेखा में 'महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखागत टिप्पणियाँ' जैसे, मंदें यदि कोई हो, जिनका नकद पर एवं उपार्जन के आधार पर अचल परिसंपत्तियों और मालसूची के आधार पर लेखाकरण मूल्यांकन आदि का संलग्न नहीं किया गया था। इसी प्रकार लेखागत टिप्पणियों में, संगठनों के अधिशेष पर आयकर का लागू न होना, संविधि अधिनियमन से छूट, आकस्मिक देयता के उपाय आदि को भी लेखाओं की पारदर्शिता के लिए सम्मिलित नहीं किया गया।

2.31 अप्रामाणिक दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज जो वर्ष 2001-02 के लेखाओं के एक भाग के रूप में दर्शाए गए हैं, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए।

- 1) प्राप्ति और भुगतान लेखा, भविष्य निधि लेखा से परिसंपत्ति एवं देयताओं का विवरण।
- 2) उद्दिष्ट निधि लेखा
- 3) इन्गू (योजनेतर) के प्राप्ति और भुगतान लेखा का विवरण
- 4) प्राप्ति और भुगतान तथा तुलन पत्र ऋण, जमा और अग्रिमों का विवरण
- 5) बैंक समाधान विवरण।

2.32 चिरस्थायी अनियमितताएँ

विश्वविद्यालय के एस ए आर में सम्मिलित किए जाने के बावजूद निम्नलिखित अनियमितताओं/कमियों के संबंध में अभी तक कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए:

- 1) बैंक समाधान विवरण तैयार करने में बकाया
- 2) परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव न करना
- 3) विश्वविद्यालय के आरंभ से ही परिसंपत्तियों, भंडार और माल का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया
- 4) मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार पाठ्यक्रमों के संवर्द्धन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दिए गए 2466.12 लाख रु. के अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होना
- 5) प्राप्ति और भुगतान लेखा में वर्ष 2001-02 के दौरान विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में प्राप्त 1268.81 लाख रु. की राशि का प्राधिकार सत्यापित नहीं किया जा सका।
- 6) के ओ यू परियोजना (ई एम पी सी) से संबंधित 59.56 लाख रु. का शेष अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया

- 7) 118 जमा निर्माण कार्यों के लिए सी पी डब्ल्यू डी /पी डब्ल्यूडी /डी वी डब्ल्यू/ अन्य एजेंसियों में 558.03 लाख रु. सहित 2054.39 लाख रु. की दी गई राशि, जो 31 मार्च 2002 तक बकाया थी, 5 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित पड़ी है।

2.33 लेखों के नए/सामान्य प्रारूप में वार्षिक लेखा तैयार न करना

संसद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति की सिफारिशों के आधार पर, महानियंत्रक लेखा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से लेखाओं की एकरूपता और पारदर्शिता के लिए केंद्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया है। नया प्रारूप, केंद्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2001-02 से अपनाया जाना था। फिर भी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 2001-02 को वार्षिक लेखा नए प्रारूप में तैयार नहीं किया गया। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2002-03 से नया प्रारूप अपनाया जाए।

2.34 तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं अदायगी लेखा पर लेखा परीक्षा टिप्पणी का प्रभाव

पूर्व पैराग्राफों का कुल प्रभाव यह है कि 31 मार्च 2002 को परिसंपत्तियों के 51.65 लाख रु. अधिक दिखाए गए, देयताओं की 82.41 लाख रु. की राशि कम बताई गई तथा व्यय से अधिक आय 3.40 लाख रु. अधिक बताए गए तथा भुगतान के 0.01 लाख रु. अधिक बताए गए।

2.35 प्रत्युत्तर प्राप्त न होना

इनू को 6.1.03 को जारी एस.ए.आर. के मसौदों का प्रत्युत्तर अगस्त 2003 तक प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 3.12.2003

डॉ. अं. कु. बनर्जी
महानिदेशक लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 2002 के परिसंपत्ति एवं देयता विवरण की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी, मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखे और परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं के विवरण उपयुक्त रूप से तैयार नहीं किए गए हैं जिससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत किया जा सके।

डॉ. अं. कु. बनर्जी
महानिदेशक लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3.12.2003

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 6th July 2005

No. N-12/13/1/2005-P&D.—In exercise of powers conferred by Section 97 of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following Regulations to amend the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the same having been previously published in the Gazette of India Part-III, Section 4 dated February 26, 2005 inviting objections/suggestions, if any, as required by Sub-Section (1) of the said Section, namely :—

1. (i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance (General) (Amendment) Regulations, 2005.

(iii) These will be effective from 1st October, 2005.

2. In Regulation 31-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the words "15 percent" shall be substituted by the words "12 percent".

A. J. PAWAR
Insurance Commissioner

New Delhi, the 22nd June 2005

No. U-16/53/2002-Med.II/(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983. I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
1. Dr. G. G. Karna	1.8.2005 to 31.7.2005	Jamalpur Office
2. Dr. Govind M. Patel	One Year from Date of notification	Khokhra

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 5th July 2005

No. N-15/13/11/1/2004-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st June, 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Sl.No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Doraha	244	Payal	Ludhiana
2.	Kanech	220	Ludhiana	Ludhiana
3.	Jaspal Bangar	259	Ludhiana	Ludhiana
4.	Khakat	234	Ludhiana	Ludhiana
5.	Rajgarh	243	Payal	Ludhiana
6.	Jaspalon	150	Khanna	Ludhiana
7.	Mallipur	247	Payal	Ludhiana
8.	Kaddon	246	Payal	Ludhiana

S. THOMAS

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 1st July 2005

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 13-CA (EXAM)/N/2005: - In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

Similarly Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations will also be held on the dates given below at the following centres (centres in India only) in terms of provisions as contained in Schedule "C", "G" and "H" of the Chartered Accountants Regulations, 1988 respectively, provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

PROFESSIONAL EDUCATION EXAMINATION - I:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

5th, 7th, 8th and 9th November, 2005

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

PROFESSIONAL EDUCATION EXAMINATION - II:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I: 5th, 7th and 8th November, 2005**Group-II: 9th, 10th and 11th November, 2005**

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION:

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I: 5th, 7th, 8th and 9th November, 2005**Group -II: 10th, 11th, 12th and 14th November, 2005**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I) EXAMINATIONS:

[As per provision contained in "Schedule C" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I: 10th and 11th November, 2005**Group-II: 12th and 14th November, 2005**

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in "Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	10th, 11th, 12th and 14th November, 2005
------------------------	---

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in "Schedule H" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group A	5th, 7th and 8th November, 2005
Group B	9th, 10th and 11th November, 2005

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

EXAMINATION CENTRES:**(I) CENTRES IN INDIA :**

1	AGRA	26	DELHI/NEW DELHI	51	KOLKATA	76	SALEM
2	AHMEDABAD	27	DHANBAD	52	KOTA	77	SANGLI
3	AJMER	28	DURG	53	KOTTAYAM	78	SHIMLA
4	AKOLA	29	ERNAKULAM	54	KOZHIKODE (CALICUT)	79	SILIGURI
5	ALLAHABAD	30	FARIDABAD	55	LUCKNOW	80	SOLAPUR
6	ALLEPPEY	31	GHAZIABAD	56	LUDHIANA	81	SRI GANGANAGAR
7	ALWAR	32	GOA	57	MADURAI	82	SURAT
8	AMBALA	33	GUNTUR	58	MANGALORE	83	THANE
9	AMRAVATI	34	GURGAON	59	MATHURA	84	THIRUVANANTHA PURAM (TRIVANDRUM)
10	AMRITSAR	35	GUWAHATI	60	MEERUT	85	THRISSUR (TRICHUR)
11	ASANSOL	36	GWALIOR	61	MORADABAD	86	TIRUCHIRAPALLI
12	AURANGABAD	37	HISAR	62	MUMBAI	87	UDAIPUR
13	BANGALORE	38	HUBLI	63	MUZAFFARNAGAR	88	UDUPI
14	BAREILLY	39	HYDERABAD	64	MYSORE	89	UJJAIN
15	BATHINDA	40	INDORE	65	NAGPUR	90	VADODARA (BARODA)
16	BELGAUM	41	JABALPUR	66	NASIK	91	VARANASI
17	BHILWARA	42	JAIPUR	67	NOIDA	92	VELLORE
18	BHOPAL	43	JALANDHAR	68	PANIPAT	93	VIJAYAWADA
19	BHUBANESWAR	44	JALGAON	69	PATNA	94	VISAKHAPATNAM
20	BIKANER	45	JAMMU	70	PIMPRI-CHINCHWAD	95	YAMUNANAGAR
21	CHANDIGARH	46	JAMNAGAR	71	PUNE		
22	CHENNAI	47	JAMSHEDPUR	72	RAIPUR		
23	COIMBATORE	48	JODHPUR	73	RAJKOT		
24	CUTTACK	49	KANPUR	74	RANCHI		
25	DEHRADUN	50	KOLHAPUR	75	ROHTAK		

(ii) OVERSEAS CENTRES: (ONLY FOR PROFESSIONAL EDUCATION – I, PROFESSIONAL EDUCATION-II AND FINAL EXAMINATIONS)

1) DUBAI (UAE)	2) KATHMANDU (NEPAL)
----------------	----------------------

Payment of fees for the examinations should be made by Demand Draft only. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.60/- per application form in respect of Professional Education - I, Professional Education -II and Final Examinations. The cost of Examination application forms for Management Accountancy Course (MAC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations is Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 3rd August 2005.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 24th August 2005. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 24th August 2005 and upto 31st August 2005 with late fee of Rs. 200/-. Applications received after 31st August 2005 shall not be entertained under any circumstances. Applications for the students' examinations only duly filled in will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 24th August 2005. However, application forms duly completed for the Post Qualification Course examinations viz: Management Accountancy Course (MAC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) examinations will be received only at the New Delhi office of the Institute.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

For the current examination also, the students of PE I examination will have the option of online filling up of examination forms on www.ical.nic.in on an experimental basis.

The fees payable for the various examinations are as under: -

PROFESSIONAL EDUCATION EXAMINATION- I:	Rs. 1000/-
---	------------

PROFESSIONAL EDUCATION EXAMINATION- II:	
For Both the Groups	Rs. 1250/-
For one of the Groups	Rs. 750/-

FINAL EXAMINATION:	
For Both the Groups	Rs. 1750/-
For one of the Groups	Rs. 1000/-

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I) EXAMINATION:	
For Both the Groups	Rs. 400/-
For one of the Groups	Rs. 200/-

INSURANCE & RISK MANAGEMENT (IRM) EXAMINATION:	Rs. 1000/-
---	------------

INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION (ITL&WTO) EXAMINATION:	
For Both the Groups	Rs. 2000/-
For one of the Groups	Rs. 1000/-

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final examinations opting for Dubai Centre are required to remit US\$ 200, US\$ 250 and US\$ 300 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Indian Rs.1500/-, Rs.1750/- and Rs.2250/- respectively or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a group or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :

Candidates of Professional Education - I, Professional Education - II and Final Examinations will be allowed to opt for Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form. However the medium of Examinations will be English only in respect of Management Accountancy Course (MAC Part-I), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL&WTO) Examinations.



(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**NON-PLAN****1. REVENUE****RECEIPTS**

(Figures in Rupees)

OPENING BALANCE :-**Headquarters :**

Imprest	3,23,600
---------	----------

Investment	63,50,00,000
------------	--------------

CASH AT BANK

Punjab National Bank – Maidan Garhi	3,34,99,574
State Bank of India – Saket	39,78,257
State Bank of India - Parliament Street	3,77,214
Post Office	2,000
	----- 3,78,57,045

Excess amount taken in the Cash Book	(-) 1,02,65,523
--------------------------------------	-----------------

Regional Centres :

Imprest	1,55,35,213
---------	-------------

Fees :

Amount lying as on 31 st March, 2001	2,35,75,591
---	-------------

Grants :

Amount lying as on 31 st March, 2001	3,51,91,479
---	-------------

Grants in Transit as on 31 st March, 2001	15,00,000
--	-----------

E.M.P.C.

Amount lying as on 31 st March, 2001	32,69,613
---	-----------

Imprest	28,000
---------	--------

I. GRANTS & OTHER RECEIPTS

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grants from Government of India, Ministry of H.R.D., Department of Education | 1,50,00,000 |
|---|-------------|

2. RECEIPTS FROM STUDENTS

Fees from Students	1,26,62,80,515
--------------------	----------------

Sale of Application Forms	4,28,37,542
---------------------------	-------------

Other Receipts from Students	75,14,571
------------------------------	-----------

Partner Institutions - Fees	10,39,145
-----------------------------	-----------

International Activities	43,88,186
--------------------------	-----------

ADD :

Amount lying at RCs as on 31-03-2002	2,94,67,861
--------------------------------------	-------------

LESS :

Amount lying at RCs as on 31-03-2001	(-) 2,35,75,591
	-----1,32,79,52,229

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 3. Receipts from Publications | 63,44,845 |
|-------------------------------|-----------|

- | | |
|--|----------|
| 4. Copyright Fees for use of IGNOU Course Material | 4,47,950 |
|--|----------|

5. RECEIPTS FROM EMPC OPERATION

1. Receipts from Tele-Conferencing	20,20,530
------------------------------------	-----------

2. Facility Rental & Outside Production Assign.	11,73,590
---	-----------

3. Sale of Audio/Video Cassettes	13,13,264
----------------------------------	-----------

4. Receipts from Prod, Training, Workshop	1,00,372
	-----46,07,756

- | | |
|--|----------|
| 6. Income from Building, Land, Licence Fees of Residential Flats/Govt. Houses/Guest House etc. | 7,84,382 |
|--|----------|

- | | |
|--|----------|
| 7. Capitalised Value of Pensionary benefits received from Parent Department. | 3,40,102 |
|--|----------|

8. Receipts from Indian Journal of Open Learning	23,500
9. Interest on Bank Deposits	5,94,74,374
10. Interest on long term advances	3,30,343
11. Bus Charges recovered from Staff	5,925
12. Miscellaneous Receipts	80,68,649
13. Leased House Recovery	4,000
TOTAL REVENUE RECEIPTS	2,16,53,99,073

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**NON-PLAN****1. REVENUE**

PAYMENTS	(Figures in Rupees)
I. ADMINISTRATIVE EXPENSES	7,32,14,772
II. ADMINISTRATIONS :-	
1. Vice-Chancellor's Office	25,48,073
2. Pro-Vice-Chancellor's Office	6,12,355
3. Planning & Development Division	28,18,233
4. Academic Co-Ordination Division	16,87,692
5. Administration Division	2,92,52,702
6. Finance & Accounts Division	1,06,39,902
7. International Cell	46,03,524
III. SCHOOLS :-	
1. School of Management Studies	1,21,42,446
2. School of Humanities	99,09,228
3. School of Sciences	1,31,88,544
4. School of Social Sciences	2,42,47,253
5. School of Engineering & Technology	38,92,370
6. School of Continuing Education	70,81,469
7. School of Education	70,83,162
8. School of Health Science	78,88,725
9. School of Computer & Information Science	38,10,418

10. Centre for Extension Education	36,23,476
11. Editorial Unit	15,87,317
11. Staff Training & Research Institute (STRIDE)	52,71,482
12. Distance Education Council	25,87,724
13. Research Grants	23,76,075

IV. DIVISIONS :-

1. Regional Service Division	68,48,232
------------------------------	-----------

2. REGIONAL CENTRES

Expenditure out of Quarterly Grants	37,89,38,515
Expenditure met by Headquarters	4,80,484
	----- 37,94,18,999

3. ELECTRONIC MEDIA PRODUCTION CENTRE

Expenditure out of Quarterly Grants	3,83,66,404
-------------------------------------	-------------

4. Computer Division	1,84,10,173
5. Student Registration & Evaluation Division	12,41,61,353
6. Library & Documentation Division	67,92,979
7. Material, Printing & Distribution Division	19,20,40,485
8. Construction & Maintenance Division	2,01,33,513

V. Staff Welfare Scheme	11,30,717
-------------------------	-----------

VI. Miscellaneous	20,37,467
-------------------	-----------

VII. Provident Fund & Pensions	39,10,029
--------------------------------	-----------

TOTAL REVENUE PAYMENTS 1,02,33,17,293

NOTE: For detailed Expenditure refer to Schedule No. 6

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**NON-PLAN****2. DEBT, DEPOSITS ETC.****RECEIPTS**

(Figures in Rupees)

I. DEPOSITS :-

Security Deposits/Earnest Money	4,25,911	
SC/ST Scholarship	1,01,445	
	-----	5,27,356

II. RECOVERIES FROM SALARY :-

1. Income Tax	1,09,29,148	
2. General Provident Fund	3,77,87,678	
3. Contributory Provident Fund	33,81,793	
4. Group Insurance Scheme	12,21,693	
5. Staff Welfare Fund	5,05,774	
6. Thrift Credit Society (IGNOU)	72,01,811	
7. LIC/SLI/PLI	18,08,580	
8. Provident Fund (Deputation)	2,64,375	
9. House Building Advances (Deputation)	1,79,473	
10. Conveyance Advance (Deputation)	17,668	
11. Licence Fee/Water Charges (Deputation)	3,21,581	
12. CGEIS (Deputation)	16,800	
13. Miscellaneous (Deputation)	37,380	
14. Prime Minister Relief Fund	1,23,559	
15. Receipts from LIC for GIS Payments	2,84,359	
	-----	6,40,81,672

III. RECOVERY OF ADVANCES

a) House Building	24,53,307	
b) Conveyance	26,19,344	
c) Festival	6,41,350	
d) Computer	6,06,146	
e) Natural Calamity	32,200	
	-----	63,52,347

IV. OTHER RECOVERIES :-

1. Income Tax from Contractors	82,17,163
--------------------------------	-----------

V. FUND TRANSFER FROM :-

1. Plan Accounts	9,24,04,068	
2. Ear Marked Fund	11,69,776	
	-----	9,35,73,844

TOTAL DEBT, DEPOSITS ETC. 17,27,52,382

TOTAL REVENUE RECEIPTS 2,16,53,99,073

GRAND TOTAL 2,33,81,51,455

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**NON-PLAN****2. DEBT, DEPOSITS ETC.**

PAYMENTS	(Figures in Rupees)	
I. DEPOSITS :-		
Security Deposits/Earnest Money/Refunded		4,28,333
II. ADVANCES TO CENTRES :-		
1. Miscellaneous Advances (Hqrs)	8,94,494	
2. Miscellaneous Advances (RCs)	59,26,148	
	-----	68,20,642
III. REMITTANCE (RECOVERED FROM SALARY) :-		
1. Income Tax	1,09,66,082	
2. General Provident Fund	3,77,55,958	
3. Contributory Provident Fund	33,81,293	
4. Group Insurance Scheme	12,47,310	
5. Staff Welfare Fund	5,04,294	
6. Thrift Credit Society (IGNOU)	71,90,894	
7. LIC/SLI/PLI	17,97,593	
8. Provident Fund (Deputation)	2,64,375	
9. House Building Advance (Deputation)	1,79,473	
10. Conveyance Advance (Deputation)	17,668	
11. Licence Fee/Water Charges (Deputation)	3,21,581	
12. CGEIS (Deputation)	16,800	

13. Miscellaneous (Deputation)	37,380	
14. Prime Minister Relief Fund	1,22,028	
15. Receipts from LIC for GIS Payments	2,75,030	
	-----	6,40,77,759
IV. ADVANCES TO STAFF		
1. Short term Advances	6,82,650	
2. Interest bearing Advances	1,17,48,024	
	-----	1,24,30,674
V. OTHER RECOVERIES :-		
1. Income Tax from Contractors		81,58,228
VI. FUNDS TRANSFER TO :-		
1. Plan Account	10,47,53,748	
2. Ear Marked Fund	16,75,433	
3. Provident Fund	37,27,196	
4. DEP-DPEP	20,00,000	
	-----	11,21,56,377
AMOUNT LYING WITH REGIONAL CENTRES :-		
Fees : Amount lying as on 31 st March, 2002		2,94,67,861
Grants : Amount lying as on 31 st March , 2002		3,99,16,639
Imprest		1,46,92,291
AMOUNT LYING WITH EMPC		
Amount lying as on 31 st March, 2002		25,85,588
Imprest		1,40,000
AMOUNT LYING WITH HEAD-QUARTER		
CLOSING BALANCE		

Imprest	3,36,600
Investment	79,50,00,000
CASH AT BANK	
Punjab National Bank - Maidan Garhi	21,37,05,356
State Bank of India - Saket	1,36,78,934
State Bank of India - Parliament Street	7,47,358
Post Office	4,91,522
	----- 22,86,23,170
TOTAL DEBT, DEPOSITS ETC.	1,31,48,34,162
TOTAL REVENUE EXPENDITURE	1,02,33,17,293
GRAND TOTAL	2,33,81,51,455

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PLAN****I. REVENUE****RECEIPTS**

(Figures in Rupees)

OPENING BALANCE - HEADQUARTERS :

Imprest	13,000*
Investment	1,00,00,000
Cash at Bank	
Punjab National Bank - Maidan Garhi	3,74,13,203
State Bank of India - Saket	2,91,84,619

	6,65,97,822
Less Amount taken in the Cash Book	8,76,269

REGIONAL CENTRES :

Deposit for Building of Regional Centres as on 31 st March, 2001	74,897
Amount lying with Regional Centres as on 31 st March, 2001	1,53,93,906
Grants in Transit with Regional Centres as on 31 st March, 2001	35,374
Imprest	11,18,041

E.M.P.C. :

Amount lying with EMPC as on 31st March, 2001
65,58,602

Imprest	21,000
---------	--------

I. GRANTS & OTHER RECEIPTS

1. Grants from Govt. of India, Ministry of H.R.D.,	52,56,00,000
--	--------------

TOTAL REVENUE RECEIPTS 62,62,88,911

Not shown in the Closing Balance of Annual Accounts for the year 1999-2000.

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PLAN****I. REVENUE****PAYMENTS****(Figures in Rupees)****I. HEAD-QUARTERS****1. GRANTS**

1.	Grants to Other University/Institute for Promotion of Open University	11,07,25,500
2.	Grants for North-East Project	1,58,93,383

		12,66,18,883

II. REGIONAL CENTRES

	Expenditure out of Quarterly Grants	2,54,35,898
--	-------------------------------------	-------------

III. ELECTRONIC MEDIA PRODUCTION CENTRE

	Expenditure out of Quarterly Grants	5,66,11,348
--	-------------------------------------	-------------

	TOTAL REVENUE PAYMENT	20,86,66,129

NOTE : For detailed Expenditure refer to Schedule No. 7

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PLAN****CAPITAL EXPENDITURE**

PAYMENTS	(Figures in Rupees)	
1. DEVELOPMENT OF UNIVERSITY CAMPUS		
1. Construction of Campus at Maidan Garhi	98,38,542	
2. Addition to Asiad Village Flats	6,09,164	
2. Computer Hardware & Installation	2,99,28,850	
3. Other Equipment	39,10,422	
4. LIBRARY & DOCUMENTATION DIVISION		
1. Library Books	59,20,587	
2. Library Furniture	14,553	
3. Library Equipment	76,523	
	-----	60,11,663
5. ELECTRONIC MEDIA PRODUCTION CENTRE		
1. Furniture for Sanchar Kendra	3,12,108	
2. Studio Equipment	19,229	
3. Other Capital Items	4,21,581	
	-----	7,52,918
GYAN DARSHAN		
1. Equipment for Earth Station Gyan Darshan	38,12,517	
GYAN VANI		
1. Equipment	4,50,36,654	

2.	Consultancy, Installation System Design & Integration	6,60,00,000	
3.	Civil Works		
	(i) Transmission Studio Construction	1,90,00,000	
	(ii) Audio Studio Construction – Partner Instt.	12,81,716	
		-----	13,58,83,805
6.	REGIONAL CENTRES		
1.	Furniture	11,44,746	
2.	Equipment	41,15,724	
3.	Books	69,883	
		-----	53,30,353
7.	Furniture for University offices		41,69,069
8.	Installation of Heavy Racking System		1,12,068
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE		----- 19,57,93,936 -----

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PLAN****II. DEBT, DEPOSIT ETC.****RECEIPTS**

(Figures in Rupees)

I. OTHER RECOVERIES :-

1. Income Tax (Contractors)	17,54,302	
2. Security Deposit (Contractors)	10,64,113	
3. Employees Welfare Fund	310	
4. Prime Minister Relief Fund	1,480	
	-----	28,20,205

II. FUNDS TRANSFERRED FROM :-

1. Non-plan – Hqrs.	10,47,53,748
---------------------	--------------

TOTAL DEBT, DEPOSIT ETC. 10,75,73,953**TOTAL REVENUE RECEIPTS** 62,62,88,911**GRAND TOTAL** 73,38,62,864

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PLAN****II. DEBT, DEPOSIT ETC.****PAYMENTS**

(Figures in Rupees)

I. ADVANCE/DEPOSIT WITH OTHER ORGANISATION

C.P.W.D./P.W.D. 14,01,18,181

ADVANCES

1. By Headquarters	30,10,562	
2. By Regional Centres	8,62,011	
3. By EMPC - Miscellaneous	50,000	
4. By EMPC - Gyan Vani	74,14,000	
5. By EMPC - NEMFO Project	35,00,000	
	<u>1,48,36,572</u>	

II. OTHER RECEOVERIES :-

1. Income Tax from Contractor	14,96,136	
2. Security Deposit (Contractors)	10,97,313	
3. Employees Welfare Fund	310	
4. Prime Minister Relief Fund	286	
	<u>25,94,045</u>	

IV. FUNDS TRANSFERRED TO :-

1. Non-Plan	9,24,04,068	
2. Earmarked Fund (Hqrs)	15,215	
	<u>9,24,19,283</u>	

VI. AMOUNT LYING WITH REGIONAL CENTRES

Amount lying with Regional Centres as on 31 st March, 2002	1,42,37,566
Grants in Transit with Regional Centres as on 31 st March, 2002	42,750
Imprest	5,99,616

AMOUNT LYING WITH EMPC

Amount lying with EMPC as on 31 st March, 2002	1,31,97,041
Imprest	21,000

AMOUNT LYING WITH HEAD-QUARTER

Imprest	13,000
---------	--------

CASH AT BANK :

Punjab National Bank - Maidan Garhi	4,70,60,317
State Bank of India - Saket	42,63,428
	5,13,23,745

TOTAL DEBT, DEPOSIT ETC.	32,94,02,793
---------------------------------	---------------------

TOTAL REVENUE EXPENDITURE	20,86,66,129
----------------------------------	---------------------

TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	19,57,93,936
----------------------------------	---------------------

GRAND TOTAL	73,38,62,864
--------------------	---------------------

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02

NON-PLAN

EXPENDITURE		(Figures in Rupees)
2000-01		2001-02
6,29,48,059	1. Administrative Expenses	7,32,99,396
	2. Operational Expenses Expenditure including Schools	
13,60,47,042	A) Academic Activities (including Schools)	15,42,64,446
75,40,826	B) Regional Services Division	68,48,232
30,50,74,846	C) Regional Centres	37,99,99,292
4,18,34,935	D) Electronic Media Production Centre	3,84,54,004
95,26,063	E) Computer Division	1,84,10,173
10,21,87,355	F) Student Registration & Evaluation Division	12,41,61,353
67,35,497	G) Library & Documentation Division	67,92,979
9,04,20,549	H) Material, Printing & Distribution Division	20,09,71,161
1,69,52,923	J) Construction & Maintenance Division	2,01,83,839
	I) Distance Education Council	25,87,724
7,61,244	3. Staff Welfare Scheme	11,72,717
35,92,284	4. Miscellaneous Expenses	20,37,467
43,99,749	5. Provident Fund & Pension	39,10,029
3,46,108	6. Other Academic Activities	
41,35,81,050	Excess of Income over Expenditure Transferred to Statement of Assets and Liabilities	39,02,91,243
1,20,19,48,530	GRAND TOTAL	1,42,33,84,055

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02**NON-PLAN**

INCOME	Head of Account		(Figures in Rupees)
2000-01			2001-02
	1. GRANTS		
3,75,00,000	A) Grants from the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Department Of Education		1,50,00,000
8,17,025	B) Grants from State Govt. for Hiring of Building for RCs		
	2. RECEIPTS FROM STUDENTS		
1,02,43,86,319	A) Fees From Students	1,27,21,72,785	
4,25,91,538	B) Sale of Application form	4,28,37,542	
69,83,835	C) Other Receipt form Student	75,14,571	
39,910	D) Partner Institutions - Fees	10,39,145	
16,99,111	E) International Activities	43,88,186	
		-----	1,32,79,52,229
99,99,181	3. Receipts from Publications		63,44,845
13,26,313	4. Income from Buildings & Other properties		7,84,382
11,29,275	5. Capitalised value of Pensionary Benefits received form parent departments		3,40,102
4,01,58,367	6. Interest on Bank Deposits		5,94,74,373
3,53,974	7. Interest on Long Term Advances		3,30,343
23,610	8. Subscription of IJOL		23,500

12,25,000	9.	Copyright Fees from IGNOU Course Materials	4,47,950
3,900	9.	Bus Charges recovered from the IGNOU Staff	5,925
42,233	10.	Leased Houses Recovery	4,000
77,98,364	11.	Receipts from EMPC Operation	46,07,750
2,58,70,575	12.	Miscellaneous Receipts	80,68,650
	13.	Excess of Expenditure over Income Transferred to Statement of Assets and Liabilities	
<u>1,20,19,48,530</u>		GRAND TOTAL	<u>1,42,33,84,055</u>

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02**PLAN**

EXPENDITURE		(Figures in Rupees)	
2000-01	Head of Account		2001-02
	1. Operational Expenses		
1,30,89,429	A) Regional Centres		2,54,35,897
2,51,72,059	B) Electronic Media Production Centre		6,43,65,566
19,02,84,127	2. Grants to other Institutions		11,07,25,500
1,15,08,560	3. North-East Project		1,58,93,383
6,27,86,300	4. Excess of Income over Expenditure transferred to Statement of Assets and Liabilities		4,05,33,210
30,28,40,475	GRAND TOTAL		25,69,53,556

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02**PLAN**

INCOME	(Figures in Rupees)	
2000-01	Head of Account	2001-02
	1. GRANTS	
42,00,00,000	Grants from the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education	52,56,00,000
8,00,00,000	Grants for North-East Project	
	LESS :	
(-) 19,71,59,525	Amount transferred to Capital Fund	(-) 26,86,46,444
	Excess of Expenditure over Income Transferred to Statement of Assets and Liabilities	
30,28,40,475	GRAND TOTAL	25,69,53,556

STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES AS ON 31-03-2002**LIABILITIES**

AS ON 31-03-2001		(Figures in Rupees) AS ON 31-3-2002	
1. CAPITALISED VALUE OF GRANTS			
1,80,35,95,844	Opening Balance	1,80,35,95,844	
	ADD :		
	Transferred from Income & Expenditure Account – Plan	26,86,46,444	
	Adjustment of Previous year	(-) 32,994	
		-----	2,07,22,09,294
2. GIFTS AND DONATIONS			
3,18,15,560	Opening Balance	3,18,15,560	
	Addition during the year	1,16,765	
		-----	3,19,32,325
3. PROVIDENT FUND ACCOUNT			
1,61,565	Plan Account		1,61,565
51,730	Non-Plan Account		83,950
	(As per Schedule No. 1 & 2)		
29,808	4. GROUP INSURANCE SCHEME – NON-PLAN		4,191
	(As per Schedule No. 1)		
5. RECOVERIES FROM SALARIES AWAITING REMITTANCE			
4,60,715	Non-Plan Account		5,04,563
	(As per Schedule No. 1 & 2)		
	6. AMOUNT PAYABLE		2,28,354
	(As per Schedule No. 2)		

5,842	7. CO-OPERATIVE THRIFT CREDIT SOCIETY (As per Schedule No. 1 & 2)	16,759
1,82,27,128	8. SECURITY DEPOSIT/EARNEST MONEY OF CONTRACTORS (As per Schedule No. 3)	1,84,11,724
2,051	9. ADVANCE RECOVERABLE - Natural Calamity	23,751
10. AMOUNT TRANSFER BETWEEN FUNDS		
5,76,294	i) EMF to Non-Plan	5,76,294
3,26,71,485	ii) Non-Plan to Plan	1,03,49,080
11. EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE & AMOUNT PAYABLE		
1,17,50,91,122	Opening Balance	1,17,50,91,122
	Transfer from I & E Account	
	Non-Plan	39,02,91,243
	Plan	4,05,33,210
		1,60,12,15,575
12. CAPITALISED VALUE OF EMF GRANTS		
1,16,77,348	Opening Balance	1,16,77,348
	Addition during the year	1,73,08,539
		2,89,85,887
10,58,55,713	13. UNSPENT BALANCE OF EARMARKED FUNDS (As per Schedule No. 5)	11,13,21,937
31,06,608	14. Security Deposit (Recovered from Bills but not transferred to Security Deposit Account)	30,70,986

15. SC/ST - SCHOLARSHIP

1,66,603	Opening Balance	1,66,603	
	Addition during the year	1,01,445	
		-----	2,68,048
-----	GRAND TOTAL		-----
3,18,34,95,416			3,88,40,64,933
-----			-----

STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES AS ON 31-03-2002**ASSETS**

AS ON 31-03-2001		(Figures in Rupees) AS ON 31-3-2002	
1. LAND AND BUILDING			
Development of University Campus			
23,40,776	A) Land		23,40,776
B) Development of University Campus/Regional Offices			
44,80,21,066	Opening Balance	44,80,21,066	
	Addition during the year	98,38,542	
	Adjustment during the year Including Regional Centres	7,18,16,111	
		-----	52,96,75,719
C) Acquisition of Flats in Asiad Village Complex			
4,65,03,365	Opening Balance	4,65,03,365	
	Addition during the year	6,09,164	
	Adjustment of Previous Year	(-) 32,994	
		-----	4,70,79,535
74,11,17,930	D) Construction of EMPC Building with Japanese Aid		74,11,17,930
2. STUDIO EQUIPMENT AND FITTING			
15,95,42,428	i) Opening Balance	15,95,42,428	
	Addition during the year	4,40,810	
		-----	15,99,83,238
	ii) Equipment for Earth Station – Gyan Darshan		38,12,517

3. GYAN VANI

i) Equipment	4,50,36,654
ii) Consultancy, Installation System Design & Integration	6,60,00,000
iii) Civil Works – Transmission Studio Construction	1,90,00,000
iv) Civil Works – Audio Studio Construction – Partner Inst.	12,81,716

4. COMPUTER HARDWARE & INSTALLATION

13,32,42,890	Opening Balance	13,32,42,890	
	Addition during the year	2,99,28,850	
		-----	16,31,71,740

5. OTHER EQUIPMENTS

6,35,78,986	Opening Balance	6,35,78,986	
	Additional during the year	39,10,422	
	Adjustment of Advance	24,500	
		-----	6,75,13,908

52,28,950	6. SCIENCE LABORATORY EQUIPMENT	52,28,950
-----------	--	-----------

7. LIBRARY**A) Books**

6,52,99,699	Opening Balance	6,52,99,699	
	Additions during the year	59,20,587	
	Gift received during 2001-02	1,16,765	
		-----	7,13,37,051

6,80,520	B) Video/Audio	6,80,520
----------	-----------------------	----------

C) Furniture and Equipment

1,17,94,581	Opening Balance	1,17,94,581
-------------	-----------------	-------------

	Addition during the year	91,076	
		-----	1,18,85,657
	8. FURNITURE FOR UNIVERSITY OFFICE, GUEST HOUSE ETC.		
2,87,77,577	Opening Balance	2,87,77,577	
	Addition during the year	41,69,069	
		-----	3,29,46,646
	9. FURNITURE FOR E.M.P.C.		
54,96,216	Opening Balance	54,96,216	
	Addition during the year	3,12,108	
		-----	58,08,324
	10. VEHICLES		
1,31,37,435	Opening Balance	1,31,37,435	
	Adjustment of Advance	10,11,897	
		-----	1,41,49,332
	11. REGIONAL/STUDY CENTRES		
	i) Furniture		
4,57,26,717	Opening Balance	4,57,26,717	
	Addition during the year	11,44,746	
		-----	4,68,71,463
	ii) Equipment		
5,22,12,274	Opening Balance	5,22,12,274	
	Addition during the year	41,15,724	
		-----	5,63,27,998
	iii) Books		
2,63,094	Opening Balance	2,63,094	
	Addition during the year	69,883	
		-----	3,32,977

iv) Computer Laboratory

43,29,796	Opening Balance	43,29,796
-----------	-----------------	-----------

33,65,604	v) Capital Items for North-East Project	33,65,604
-----------	---	-----------

12. INSTALLATION OF HEAVY RACKING SYSTEM - M.P.D.D.

37,40,855	Opening Balance	37,40,855
	Addition during the year	1,12,068

		38,52,923

1,10,533	13. CRECHE - FURNITURE & EQUIPMENT	1,10,533
----------	------------------------------------	----------

14. CANTEEN

1,97,804	Furniture	1,97,804
6,87,998	Equipment	6,87,998

14,310	15. STRIDE - EQUIPMENT	14,310
--------	------------------------	--------

16. E.M.F. - EQUIPMENT

1,16,77,348	Opening Balance	1,16,77,348
	Addition during the year	1,73,08,539

		2,89,85,887

7,09,867	17. DEPOSITS WITH OTHER DEPTS/ORGS.	7,09,867
----------	-------------------------------------	----------

**18. DEPOSITS AGAINST WORKS IN PROGRESS
Delhi PWD/D.V.B./CPWD**

13,71,37,062	Opening Balance	13,71,37,062
	Deposits during the year	14,01,18,181
	LESS : Capitalised Expenditure	7,18,16,111

		20,54,39,132

31,006	19. AMOUNT RECOVERABLE (As per Schedule No. 2)	
--------	---	--

8,444	20. STAFF WELFARE FUND	6,964
	(As per Schedule No. 1 & 2)	
	21. ADVANCES	
4,78,518	Festival Advance	5,09,318
1,05,14,757	Conveyance Advance	99,89,593
37,05,763	Personal Computer Advance	42,38,977
3,17,36,142	House Building Advance	3,77,97,319
9,73,00,467	Other Advances recoverable	10,92,81,624
	(As per Schedule No. 4)	
	22. AMOUNT TRANSFER BETWEEN FUNDS	
	i) DPEP to Non-Plan Accounts	20,00,000
3,26,71,485	ii) Non-Plan to Plan Accounts	1,23,49,680
11,20,723	iii) EMF to Plan Accounts	11,20,723
88,79,277	iv) Plan Account to EMF	15,215
5,76,294	v) Non-Plan to EMF	5,05,657
30,00,000	vi) Security Deposits to Non-Plan	30,00,000
74,250	viii) Non-Plan(EMPC) to Consultancy Services	74,250
12,73,107	viii) Non-Plan to Provident Fund	50,00,303
49,09,891	23. EARMARKED FUNDS	1,27,57,027
	AMOUNT RECOVERABLE	
	(As per Schedule No. 5)	
4,98,58,303	24. CLOSING STOCK OF PAPER	4,09,68,227
	(M.P.D.D. Division)	
	CLOSING BALANCE	
	NON-PLAN ACCOUNT	
	REGIONAL CENTRES	
3,51,91,479	Grants lying with Regional Centres	3,99,16,639
15,00,000	Grants in Transit at Regional Centres	
1,55,35,213	Imprest	1,46,92,291

2,35,75,591	Fees and other receipts lying with the	2,94,67,861
	<i>E.M.P.C.</i>	
32,69,613	Amount lying with EMPC	25,85,588
28,000	Imprest	1,40,000
	<i>HEAD QUARTERS</i>	
63,50,00,000	Investment	79,50,00,000
3,23,600	Imprest	3,36,600
	<i>CASH AT BANK</i>	
3,34,99,574	PNB - Maidan Garhi	21,37,05,356
39,78,257	SBI - Saket	1,36,78,934
3,77,214	SBI - Parliament Street	7,47,358
2,000	Post Office	4,91,522

		22,86,23,170
(-) 1,02,65,523	Amount excess taken in Cash Book	

PLAN ACCOUNT***REGIONAL CENTRES***

74,897	Amount at Regional Centre Cochin	
1,53,93,906	Amount lying with Regional Centres	1,42,37,566
35,374	Grants in Transit	42,750
11,18,041	Imprest	5,99,616

E.M.P.C.

65,58,602	Amount pertaining to E.M.P.C.	1,31,97,041
21,000	Imprest	21,000

HEAD QUARTERS.

1,00,00,000	Investment	
-------------	------------	--

13,000	Imprest		13,000
	CASH AT BANK		
3,74,13,203	PNB - Maidan Garhi	4,70,60,317	
2,91,84,619	SBI - Saket	42,63,428	
		-----	5,13,23,745
8,76,269	Amount not taken in the Cash Book		
	EARMARKED FUNDS		
7,50,00,000	Investment		7,50,00,000
	CASH AT BANK		
4,88,547	Project Director - CYP	4,88,547	
41,38,312	PNB - Hauz Khas - SOCIS - ADIT	41,38,312	
8,80,660	PNB - Hauz Khas - SOCIS - BIT	8,80,660	
9,910	Project Director - WEP	9,910	
89,28,305	PNB - M.G. A/c No. 1400	81,41,948	
20,49,327	PNB (Account No. 844)	22,02,556	
	IGNOU Tree Plantation - 6069	22,505	
	CEMBA/CEMPA - 6017	5,473	
	HIV/AIDS - G. Thomas - 6289	7,55,861	
	Virtual Campus - BIT - 5722	40,19,065	
	Virtual Campus - ADIT - 5723	29,00,073	
		-----	2,35,64,910
(-) 4,810	Excess amount taken in the Cash Book		
	SECURITY DEPOSIT		
1,00,00,000	Investment		1,00,00,000
	CASH AT BANK		
82,27,128	PNB - MG A/c No. 1700		64,11,774
-----		-----	
3,18,34,95,416	GRAND TOTAL		3,88,40,64,933
-----		-----	


ASSISTANT REGISTRAR (ACCOUNTS)


FINANCE OFFICER

RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR 2001-02**PROVIDENT FUND****RECEIPTS** **(Figures in Rupees)****OPENING BALANCE**

P.N.B. Account No. S.F. 3400 36,20,269

GENERAL PROVIDENT FUND

Subscriptions 3,94,58,037

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

Subscriptions 35,69,665

Matured Investment 1,30,00,000

Previous Amount Received 36,61,886

Interest Received awaiting settlement 86,58,517

GRAND TOTAL -----
7,19,68,374

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02**PROVIDENT FUND**

PAYMENT		(Figures in Rupees)
GENERAL PROVIDENT FUND		
Advance/Withdrawing	2,50,69,218	
Final Payments	16,45,724	
	-----	2,67,14,942
CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND		
Advance/Withdrawing	14,28,000	
Final Payments	2,66,109	
	-----	16,94,109
INVESTMENT		2,80,00,000
CLOSING BALANCE		
P.N.B. Account No. S.F. 3400		1,55,59,323

	GRAND TOTAL	7,19,68,374

**STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES OF
PROVIDENT FUND AS ON 31-03-2002**

LIABILITIES

(Figures in Rupees)

AS ON 31-03-2001

AS ON 31-03-2002

GENERAL PROVIDENT FUND

12,84,03,982	Opening Balance	12,84,03,982	
	ADD :		
	Subscriptions	3,94,58,037	
	Interest	1,24,65,874	
	LESS :		
	Withdrawal	2,50,69,218	
	Final Payment	16,45,724	
		-----	15,36,12,951

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND

2,39,48,173	Opening Balance	2,39,48,173	
	ADD :		
	Employees' Subscriptions	35,69,665	
	Interest on Subscription	16,00,857	
	Interest on Management Share	6,82,249	
	Management Share for 2001-02	8,91,155	
	LESS :		
	Withdrawal	14,28,000	
	Final Payments	2,66,109	
		-----	2,89,97,990

15,23,52,155

GRAND TOTAL

18,26,10,941

**STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES OF
PROVIDENT FUND AS ON 31-03-2002**

ASSETS

		(Figures in Rupees)	
AS ON 31-03-2001		AS ON 31-03-2002	
	IVESTMENT		
14,50,70,000	Opening Balance	14,50,70,000	
	LESS: Mature during the year	1,30,00,000	
	ADD: Addition during the Year	2,80,00,000	
		-----	16,00,70,000
36,61,886	Amount to be Received from IGNOU		69,81,618
	CLOSING BALANCE		
36,20,269	i) P.N.B. A/c No. 3400		1,55,59,323
-----			-----
15,23,52,155	GRAND TOTAL		18,26,10,941

STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2001-02
EARMARKED FUNDS ACCOUNTS

RECEIPTS**(Figures in Rupees)****OPENING BALANCE**

Investment		7,50,00,000
PNB Account No. 1400	89,28,305	
CSIR Project, PNB, Maidan Garhi, New Delhi (A/c No.844)	20,49,327	
Project Director CYP	4,88,547	
Project Director SOCIS-ADIT	41,38,312	
Project Director SOCIS - BIT	8,80,660	
Project Director- WEP	9,910	
Excess amount taken in the Cash Book	(-) 4,810	
	-----	1,64,90,251
1. Empowering Women Dvlp. Empowerment Project – Prabha Chawla		1,41,00,000
2. Common Youth Programme (CYP) - Prof. Prabha Chawla		2,72,000
3. Strengthening Local Govt. in M.P.& Training – Dr. Gopi Nath		2,12,500
4. Community Awareness on Disaster Preparedness – GOI - Prof P. Sahni		8,15,000
5. Certificate in Health & Environment - SOHS		10,00,000
6. DEKU-ISRO-JDCP – Prof. Anita Dighe		1,18,625
7. COL Literacy Project - Prof A.Dighe		27,40,900
8. ANM to GNM		46,84,000
9. UNESCO Chair in Teacher Education - Prof.SVS Choudhry		5,18,172
10. Certificate on HIV/AIDS Family Life Education – Dr. G. Thomas		7,55,861

11.	National Board for Higher Mathematics – Library Litrary	1,20,000
12.	I.R.R. - Prof. Sobhita Jain	19,52,250
13.	Access to Distance Education By Asian Women – Asha Kanwar	2,943
14.	Regional Training on Use Electronic Media in University Science Teaching – S.C. Garg - SOS	3,54,600
15.	Publication Grant from the Australia – India Council – D. Gopal	25,000
16.	Conference New Public Administration – P.Sahani	10,00,050
17.	AAOU Conference – S.C. Garg,	34,11,527
18.	CEMBA/CEMPA Programme – COL	37,768
19.	Prep of Audio, Video on Parental Awareness on Disability – Ramanujam	6,00,000
20.	Livelihood option for Disaster Risk Reduction in South Asia	84,622
21.	Production of a Television, Video Programe – COL-P.Chawla	6,10,175
22.	Certificate in Disaster Management – COL - Print, Audio/Video	2,34,803
23.	Training Workshop 34 Officers DOPT (Central & States Government) S.C. Garg & S.K. Panda	4,67,000
24.	COL Production Test Bank for CEMBA/CEMPA – International Cell	60,355
25.	Workshop on Women Development – COL- Dr. Prabha Chawla	50,000
26.	Navodaya Vidyalaya Samiti	1,54,428
27.	Bureau of Police Research Development – A.S. Narang	2,16,500
28.	Virtual Campus Initiative - BIT – 5722	78,09,401
29.	Virtual Campus Initiative - ADIT – 5723	47,87,405
30.	IGNOU Tree Plantation Account – Prof. Kapil Kumar	1,22,500
31.	Mass Computer Education – SOCIS	60,825
32.	Editing & Printing of History of Department of A.R.&P.G. – P. Sahani	1,00,000

33.	Edexcel – UK – SOCIS	25,87,500
34.	Interest	50,50,978
35.	Transfer between Plan	15,215
36.	Transfer between non-plan	5,05,657

GRAND TOTAL	14,71,28,044
--------------------	---------------------

STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2001-02
EARMARKED FUNDS ACCOUNT

PAYMENT		(Figures in Rupees)	
1.	Women Empowerment Project – Prabha Chawla		
	Other Expenditure	46,79,513	
	Capital	21,02,213	
		-----	67,81,726
2.	Commonwealth Youth Programme (CYP) - Prof. Prabha Chawla		11,16,187
3.	Training of Rural Youth – COL - Prof. Anita Dighe		2,26,362
4.	Panchayatraj Project - Prof. Aslam		2,05,866
5.	Human Rights Project - Prof. Padav Nanak		7,07,481
6.	V.Giri National Labour Institute IGNOU Project - SOSS		3,69,058
7.	Australian Edn. International course on Govt. & Politics – Dr. D. Gopal		65,847
8.	Strengthening Local Govt. in M.P.& Training – Dr. Gopi Nath		1,00,000
9.	Lectures on Non-Violence Unity & World Peace - Anuvrat Lecture		51,295
10.	Community Awareness on Disaster Preparedness – GOI - Prof P.Sahni		2,74,067
11.	CADP - IGNOU-CARE		65,000
12.	ANM to GNM - SOHS		
	Other Expenditure	9,29,841	
	Capital	72,922	
		-----	10,02,763
13.	Certificate in Health & Environment - SOHS		
	Other Expenditure	85,243	
	Capital	73,315	
		-----	1,58,558
14.	Post Graduate Diploma in Hospital & Health Management – S.B. Arora		4,134

15.	DESU-ISRO-JDCP – Prof. Anita Dighe		70,654
16.	COL Literacy Project - Prof A.Dighe		
	Other Expenditure	9,26,753	
	Capital	10,81,905	
		-----	20,08,658
17.	UNESCO Chair in Teacher Education - Prof.SVS Choudhry		5,81,796
18.	Prof. G. Ram Reddy's Memorial Lecture*		1,63,280
19.	United Nation Development Programme (COL) – Dr. Anita Dighe		2,150
20.	MEIDS - SOMS – Dr. Madhulika Kaushik		4,19,616
21.	National Board for Higher Mathematics – Library Litrary		72,784
22.	I.R.R. - Prof. Sobhita Jain		
	Other	11,72,929	
	Capital	4,51,505	
		-----	16,24,434
23.	COL Special Education - STRIDE		
	Capital Expenditure		5,64,151
24.	Regional Training on Use Electronic Media in University Science Teaching – S.C. Garg - SOS		5,92,550
25.	Indian Scholarship for SAARC Countries – M. External Affairs- Intt. Cell		77,333
26.	Conference New Public Administration – P.Sahani		3,54,492
27.	AAOU Conference – S.C. Garg		
	Other	16,88,185	
	Capital	6,682	
		-----	16,94,867
28.	Asain Regional Math Teacher Education –COL - SOS		55,000
29.	CEMBA/CEMPA Programme – COL		32,295
30.	Self learning Audio, Training Modular		3,18,163

31.	Livelihood Disaster Risk Reduction in South Asia		25,000
32.	Production, Television, Video Programe – COL-P.Chawla		5,00,000
33.	ICDE Conference		47,668
34.	Certificate Disaster Management Print, Audio/Video		27,750
35.	Training Workshop 34 Officers DOPT (Central & States Government) S.C. Garg & S.K. Panda		2,32,139
36.	Workshop on Women Development – COL- P. Chawla		1,33,725
37.	Navodaya Vidyalaya Samiti		1,54,190
38.	Natioanal Open School		
	Other	2,90,539	
	Capital	1,18,19,575	
		-----	1,21,10,114
39.	Bureue of Police Research Development – S.A. Narang		58,244
40.	Virtual Campus Initiative - BIT – 5722		
	Other	36,40,563	
	Capital	6,64,486	
		-----	43,05,049
41.	Virtual Campus Initiative - ADIT - 5723		
	Other	15,51,941	
	Capital	4,71,785	
		-----	20,23,726
42.	IGNOU Tree Plantation Account		99,995
43.	Maternal & Health Care Project		45,29,980
44.	Miscellaneous		55,754
45.	Edexcel – UK – SOCIS		40,00,000

CLOSING BALANCE :

Investment	7,50,00,000
------------	-------------

CASH AT BANK

Project Director CYP	4,88,547	
Project Director SOCIS-ADIT	41,38,312	
Project Director SOCIS - BIT	8,80,660	
Project Director- WEP	9,910	
PNB Account No. 1400	81,41,948	
PNB Account No. 844	22,02,556	
IGNOU Tree Plantation – 6069	22,505	
CEMBA/CEMPA – 6017	5,473	
HIV/AIDS – G. Thomes – 6289	7,55,861	
Virtual Campus - BIT – 5722	40,19,065	
Virtual Campus - ADIT – 5723	29,00,073	
	-----	2,35,64,910

GRAND TOTAL		14,71,28,811

**Audit Report on the accounts of Indira Gandhi National Open University
for the year 2001-2002**

Introductory

The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was established on 2nd September, 1985 under the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No.50 of 1985), as an instrument for democratizing and augmenting opportunities for higher education; widening access and promoting a flexible and cost effective system of education. The objectives of the University are mainly to advance and disseminate learning and knowledge by a diversity of means, to provide opportunity for higher education to a large segment of the population, to encourage the Open University and distance education in the educational pattern of the country and co-ordinate and determine the standards in such systems.

As required under Section 29(1) of the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 the accounts of the University are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act 1971.

The University is financed mainly by grants from the Central Government and its own revenue receipts. The University received grants aggregating to Rs.5406 lakh during 2001-2002 (Non-Plan: Rs. 150 lakh Plan: Rs. 5256 lakh) from the Central Government.

Total grants of Rs. 5406 lakh received from the Central Government formed 27.74 per cent of the total receipts of Rs.19490 lakh of the University. Non-Plan grants Rs. 150 lakh formed 1.06 per cent of the total Non-Plan receipts of Rs. 14084 lakh and 1.45 per cent of the total Non-Plan expenditure of Rs. 10331 lakh.

The University incurred an expenditure of Rs. 3223.39 lakh on establishment, representing 31.20 per cent of the total Non-Plan expenditure and 22.30 per cent of the total expenditure of Rs. 14453.08.

2. Comments on Accounts

2.1 Bank Reconciliation

The University operates twenty three bank accounts and one Post Office account. Out of these, bank reconciliation statement for the following nine bank accounts were not prepared:

(Rs. in lakh)

Bank Account	Head	Last Bank Reconciliation	Amount as per annual accounts as on 31/03/02	Amount as per Bank statement	Difference excess (+) Short (-)
PNB, S.F. A/c No. 1	Non-Plan	April, 1999	2,137.05	1,156.64	(+) 980.41
PNB, S.F. A/c 15694	EMF (SOCIS-ADIT)	Not prepared since opening of accounts 8/9/99	41.38	13.54 (as on 20/7/01)	(+) 27.84
PNB, S.F. A/c 15695	EMF (SOCIS-BIT)	Not prepared since opening of accounts 8/9/99	8.81	47.08 (as on 20/7/01)	(-) 38.27
PNB, S.F. A/c 3400	Provident Fund	March, 2000	155.59	157.91	(-) 2.32
PNB, S.F. A/c 4100	EMPC (Plan)	March, 2001	5.20	3.75	(+) 1.45
Andhra Bank, S.F. A/c 60141	- do -	- do -	15.52	51.62	(-) 36.10
Andhra Bank, S.F. A/c 51174	- do -	- do -	111.25	358.22	(-) 246.97
PNB, S.F. A/c 4050	EMPC (Non-Plan)	- do -	25.86	29.16	(-) 3.30
Andhra Bank, S.F. A/c 51124	EMPC (Security Deposit)	Not prepared since opening of accounts 2/3/2000	Not shown in annual accounts. Also no cash book maintained	5.71	(-) 5.71

2. Bank reconciliation statements for the Saving Bank Accounts No. 15694 and 15695 (PNB, Hauz Khas) were not prepared since opening of the accounts on 8/9/99. These accounts were closed and the balances were transferred on 20/7/2001 to SB Account Nos. 5723 and 5722 (PNB, MG) respectively. Bank reconciliations were not done even on/after closing of such accounts.

3. Bank reconciliation for the Saving Bank Account 51124 (Andhra Bank Green Park) operated by EMPC Unit for security deposit account was not prepared since opening of account on 2/3/2000.

4. Bank reconciliation for the Saving Bank Account 1 (PNB, Maidan Garhi), was not prepared from May, 1999. It is the main account of the University, wherein a huge difference of Rs. 980.41 lakh exists.

5. Bank reconciliation for the Saving Bank Accounts 60141, 51174 (Andhra Bank Green Park) and Saving Bank Accounts 4100 and 4050 (PNB, Maidan Garhi) operated by EMPC unit was not prepared from April, 2001.

6. Bank reconciliation for Saving Bank Account 3400 (PNB, Maidan Garhi) operated for Provident Fund Account was not prepared from April, 2000.

7. Cash Books for the Saving Bank Accounts 5723 and 5722 (PNB, MG), in which the balances lying in Saving Bank Accounts 15694 and 15695 were transferred on 20th July, 2001, were operated from 1st October, 2001 with opening balance of Rs. 12.05 lakh and Rs. 19.86 lakh. The cash books prior to 1st October, 2001 were not made available to audit respectively.

8. Scrutiny of the related bank reconciliation statements as on 31st March, 2002 appended to the annual accounts for the year 2001-02 revealed the following: -

(i) Cheques for an aggregate amount of Rs. 1768.47 lakh issued by the University were not encashed till 31st March, 2002. As per details furnished by the University, cheques for Rs. 38.75 lakh pertaining to the period 1998-99 to 2001-02 were still outstanding as on 30th June, 2002. The cheques which being more than six months old have lost their validity, should have been credited in the cash book.

(ii) Banks allowed unlinked credits and miscellaneous credits for Rs. 93.82 lakh till 31st March, 2002. As per details furnished by the University, unlinked and miscellaneous credits for Rs. 87.82 lakh pertaining to the period 1999-2000 to 2001-2002 were still outstanding as on 30th June, 2002.

(iii) The University deposited cheques/demand drafts for an aggregate amount of Rs. 1180.36 lakh but the corresponding credits were not afforded by the banks till 31st March, 2002. Of the above, cheques/DDs for Rs. 39.15 lakh had not been credited by the banks even till 30th June, 2002; of these, cheques/DDs for a sum of Rs. 31.55 lakh were more than one year old.

(iv) There were unlinked/miscellaneous debits amounting to Rs. 142.33 lakh. Erroneous debits for Rs. 140.05 lakh had not been withdrawn by the banks till 30th June, 2002 and erroneous debits for the period as back as 1997-98 were outstanding. It would appear that the University had not made concerted efforts to analyse these debits and pursue these with the banks with a view to having the incorrect debits withdrawn.

2.2 Wrong depiction of cash at bank Rs. 50.26 lakh

1. Saving Bank Account Nos. 15694 (PNB- Hauz Khas, SOCIS-ADIT) and Account No. 15695 (PNB- Hauz Khas SOCIS-BIT) were closed on 20.07.2001 and the balances amounting to Rs. 41.38 lakh and Rs. 8.81 lakh were transferred to Saving Bank Account Nos. 5723 and 5722 (PNB Maiden Garhi) respectively. It was, however, observed from the asset side of the Balance Sheet under the head, "Cash at Bank" that in spite of closure of the above

accounts, the balances were still shown against the closed accounts viz. PNB-Hauz Khas instead of showing them against A/c Nos. 5723 and 5722.

2. An amount of Rs. 4.88 lakh was shown as “Cash at Bank” against “Project Director-CYP” (PNB, C.A. No 483), whereas, in the cash book, the balance as on 31st March, 2002 was shown as Rs. 4.81 lakh. Thus there was a difference of Rs. 7,000 between Cash Book and Bank Account.
3. An amount of Rs. 9,910 was shown as “Cash at Bank” against “Project Director-WEP” (PNB, C.A. No. 515), whereas, as per cash book, the balance as on 31st March 2002 was shown as Rs. 10,000. Thus was a difference of Rs. 90 between Cash Book and Bank Account.

Thus asset “Cash at Bank” was overstated by Rs. 50.19 lakh (Rs. 41.38 lakh + 8.81 lakh)

2.3 Non-depiction of Cash at Bank

EMPC Unit of the University was having a Savings Bank A/c. 51124 in Andhra Bank, Green Park Branch, New Delhi from March 2, 2000 for keeping the account of Security Deposits. The Cash Book for the said account was not being maintained by EMPC since opening of the Account.

As the Cash Book was not maintained, the account of Rs. 5.71 lakh lying in the bank as on March 31, 2002 (as shown in the statement issued by the bank) was not shown in the annual accounts. Thus by not showing the balance lying in the said bank account in the Annual Accounts, the asset was understated by Rs. 5.71 lakh.

2.4 Non-depiction of Security Deposit of Rs. 9.19 lakh

An amount of Rs. 9.19 lakh on account of Security Deposit received by EMPC Unit from 39 parties was pending as on March 31, 2002. The outstanding amounts to be released to the parties pertain to the period as back as 1996-97.

The said liability of Rs. 9.19 lakhs was not reflected in the Annual Accounts of the University. Thus the liability was understated by Rs. 9.19 lakh.

2.5 Non-maintenance of Assets Register

The University had assets worth Rs. 20,722 lakh as on 31st March 2002. The correctness of value of these assets could not be verified in audit as assets register was not being maintained by the University. Only the assets register having the details of assets Rs. 338 lakh purchased during the year 2001-02 was produced. Physical verification of assets, stores and stock is required to be conducted every year. This was, however, not done since the inception of the University.

2.6 Depreciation

It was observed that the assets account depicted book value of assets and did not exclude obsolete, unusable and condemned assets and did not take into account depreciation with corresponding reduction to capital account. Therefore, the capital account and assets account were overstated accordingly thereby not giving the correct picture. The fact should have been stated in the notes on accounts, which was, however, not appended to accounts.

2.7 Condemned assets (furniture) worth Rs. 5 lakh disposed off, but shown in annual accounts

The University had declared condemned unserviceable furniture items costing Rs. 4,99,552/- and auctioned it for value of Rs. 30,100/-. Yet the book value of the asset "Furniture for University Office, Guest House etc". amounting to Rs. 329.46 lakh has been shown in the annual accounts without reducing the value of condemned furniture Rs. 5 lakh. Thus, the asset (furniture for University office, guest house etc.) was overstated by Rs. 5 lakh.

2.8 Difference in figures of Grants to other Universities/Institutions for promotion of Open University

There was a difference of Rs. 0.55 lakh in respect of "Research Project Grant" released to the institutions. As per schedule 7 attached with the accounts, a sum of Rs. 1.35 lakh was shown as grant released towards research project, whereas as per the grant register, an amount of Rs. 1.90 lakh was released as grant.

2.9 Wrong depiction of "Grant to other University/Institute for promotion to Open University"

As per schedule 7, the University paid "Grant to other Institute for promotion SOU" Rs. 776.71 lakh during the year 2001-02. As per ledger this amount included an expenditure of Rs. 1 lakh incurred towards IDEA Conference and Rs. 4,500/- received as unspent grant. Thus instead of showing grant of Rs. 775.75 lakh, grant of Rs. 776.71 lakh ($776.71 - 1.00 + 0.04$) was wrongly depicted in Receipt and Payment Account (Plan). Also as per the records of "Distance Education Council" (a unit of the University who released the grant), a sum of Rs. 775.75 lakh was released as grant.

Thus an excess sum of Rs. 0.96 lakh ($776.71 - 775.75$) was shown on the payment side of Plan Account.

2.10 Non-receipt of utilization certificates of grants (Rs. 2466.12 lakh)

The University paid grants of Rs. 1107.25 lakh to other Universities/Institutes for promotion of the Open University and correspondence courses as per Receipt and Payment Account (Plan) during the year 2001-02 (March, 2002). Utilization

Certificates for such amounts were not received in support of the expenditure incurred by grantee institutions. The payment was treated as final expenditure in the books of the University though no documentary proof of expenditure incurred by the grantee institutions was available.

The Utilization Certificates for Rs. 1358.87 lakh out of grants released prior to 2001-02 were also not received as detailed below :-

(Rs. in lakh)

Name of Grant	Pending Utilization Certificates				
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	Total
Development grant to State Open Universities	85.72	33.70	144.37	450.21	714.00
Unassigned grant to State Open Universities	5.50	--	--	16.72	22.22
Development grant to Correspondence course	--	25.20	152.69	444.66	622.65
	91.22	59.00	297.06	911.59	1358.87

2.11 Unspent Grant

An amount of Rs. 788.01 lakh remained unspent with the University out of the Plan grants received from the Ministry as on 31st March 2002. This amount was clubbed with the excess of income over expenditure instead of showing it separately on the liability side of the Balance Sheet.

A similar observation was made in the previous year's Audit Report and accepted by the University. But the compliance to the observation was not shown in the Accounts for the year 2001-02.

2.12 North-East Project

Ministry of Human Resource Development, released a grant of Rs. 800 lakh on 31st March 2000, for educational development of North-Eastern States. Out of this, Rs. 149.00 lakh was spent during 2000-01 and Rs. 194.00 lakh was spent during the current year 2001-02 totalling Rs. 343 lakh.

As per terms and conditions of the grant, the University shall maintain proper accounts of expenditure out of the grant and shall maintain a register of assets acquired out of this grant in form GFR-19.

The expenditure incurred on creation of assets out of this grant, however, could not be verified in audit as the requisite records were maintained by the respective north-eastern States to whom the grants were released and the information was not available in the University.

2.13 Understatement of liability and overstatement of Income (Rs. 3.40 lakh)

An amount of Rs. 3.40 lakh towards capitalised value of pensionary benefits, received from parent organization and payable to employees, has been treated as income and included in the Non-Plan account of the University, instead of reflecting it on the liability side of the Balance Sheet. Thus the income was overstated and liability was understated by Rs. 3.40 lakh.

The University stated in September 2002 that the amount has been taken on receipt side of Non-Plan, as the salaries of University employees are paid from Non-Plan. It is right to have taken the amount on receipt side of Non-Plan, but from Receipt and Payment Account, the amount should have been taken to liability side of Balance Sheet as payable on the retirement of the employees

2.14 Investment-Interest earned from Plan Funds wrongly credited to Non-Plan (Rs. 17.38 lakh)

The investment of Rs. 100 lakh made out of Plan funds in State Bank of India, Saket matured on 27th May, 2001 and an interest of Rs. 17.38 lakh was earned on its maturity. The said amount of interest was wrongly credited to Non-Plan Account instead of Plan Account.

2.15 Deposit Works

Advances amounting to Rs. 2054.39 lakh for deposit works paid to Central Public Work Department/Public Work Department/Delhi Vidyut Board/Other Construction Agencies, were outstanding as on 31st March 2002. Scrutiny of records revealed that a sum of Rs. 558.03 lakh is pending for the last 5 to 10 years and Rs. 475.35 lakh is pending for the last 5 years.

An advance of Rs. 117.91 lakh was paid during 1994-95 to Delhi Vidyut Board, for additional load of 1034.53 (11KV). Electricity supply for Electronic Media Production Centre remains unadjusted, even though the work had been completed in 1995-96.

Step may be taken to adjust the advances urgently.

2.16 Wrong classification under miscellaneous receipts

In the Receipt and Payment Account (Non-Plan) miscellaneous receipts of Rs. 80.69 lakh were shown. It included various entries not pertaining to miscellaneous receipts, as verified from the ledger:

- (1) The ledger account reflects payment of Rs. 21.95 lakh pertaining to bank advices on unlinked debits relevant to bank reconciliation.

- (2) It reflects receipts of Rs. 67.31 lakh pertaining to unlinked credits relevant to bank reconciliation.
- (3) It also depicts a receipt of Rs. 19.98 lakh with the narration “not clear to which head the amount pertain”.

These receipts and payment should have been taken to relevant head. Thus the amount shown as miscellaneous receipts was not correct.

2.17 Receipts from students

As per Receipt and Payment Account of Non-Plan (Revenue) for the year 2001-02, the University had received Rs. 12662.81 lakh as fees from students during 2001-02. To verify the authenticity of the amount, the information regarding the number of courses operated by the University, number of students admitted in various courses, fee collectable course-wise at Headquarter/Regional Centres, total fee due for collection in respect of all courses, total fee collected and details of arrears etc. was sought from the University. But the said information for 15 out of 29 Regional Centres was not made available.

Thus, in the absence of such information, the authenticity of the amount could not be verified.

2.18 Receipts from Electronic Media Production Centre Operations

In the Receipt and Payment Account of Non-Plan (Revenue) for the year 2001-02 the following were shown as receipts from EMPC operation: -

	(Rs)
(1) Receipt from Teleconferencing	20,20,530
(2) Facility Rental/Outside Production	11,73,590
(3) Sale of audio/video cassettes	13,13,264
(4) Receipts from Prod/training/workshop	<u>1,00,372</u>
	<u>46,07,756</u>

The authenticity of the amount could not be verified as the broadsheets/registers pertaining to above revenue receipts were not produced to audit.

2.19 Remittances

(i) Non-remittance of deductions

The University is required to remit deductions from the salaries of staff on account of income tax, LIC, PM's Relief Fund etc. The following balances were awaiting remittances as on 31st March, 2002. Steps may be taken to submit the amount urgently.

(In Rupees)			
Head of Account	Recoveries	Remittance	Balance awaiting remittances
Provident Fund	4,11,69,471	4,11,37,251	32,220
Staff Welfare fund	5,05,774	5,04,294	1,480
Thrift Society	72,01,811	71,90,894	10,917
LIC	18,08,580	17,97,593	10,987
Receipt from LIC	2,84,359	2,75,030	9,329
PM's Relief Fund	1,23,559	1,22,028	1,531
Income Tax Contractors	82,17,163	81,58,228	58,935

(ii) **Excess Remittances**

In certain cases remittances were made in excess of recoveries, and in certain other cases excess remittances made in the earlier years was not adjusted while making remittances during the current year.

(In Rupees)					
Head of Account	Opening Balance	Receipts during the year	Payment/ Remittances	Closing balance	Remarks
Income Tax	11145	10929148	10966082	(-) 25789	Excess remittance made
Conveyance advance	(-) 918	17668	17668	(-) 918	Excess remittance of previous year not adjusted
Income Tax Contractors	(-) 165622	8217163	8158228	(-) 106687	Excess remittance of previous year not adjusted

2.20 Advance of Rs. 1092.82 lakh awaiting adjustment

The University had advances aggregating to Rs. 1092.82 lakh awaiting adjustment with different parties as on 31st March, 2002. The advances of Rs. 973 lakh were pending as per previous accounts and Rs. 216.57 lakh were paid during 2001-02, of which only Rs. 96.76 lakh was adjusted during 2001-02.

Period-wise pendency of these advances could not be ascertained in audit, as the year-wise, party-wise break-up of these advances were not furnished by the University.

2.21 Differences in figures (Advances)

- (i) There were differences between opening balance as adopted in the broad-sheets of advances and that booked in the accounts as detailed below:

(Rs. in lakh)

Head of Account	Opening Balance as per account	Opening Balance as per Broad-Sheet	Difference
House Building Advance	317.36	316.67	0.69
Personal Computer	37.05	37.51	(-) 0.46

- (ii) There were differences between the amounts recovered on account of various advances as shown in the ledger accounts and in the broad-sheets.

(Rs. in lakh)

Head of Account	Amount recovered as per ledger	Amount recovered as per Broad-Sheet	Difference
Personal Computer	6.06	6.02	0.04
Car Advance	15.76	15.44	0.32
Scooter Advance	10.08	9.38	0.70

Broad-sheets and ledgers of accounts need reconciliation.

2.22 Provident Fund Account

- (i) Difference in figures

Differences in opening balance, due to wrong carrying forward of closing balances of previous year were observed as under :-

(Figure in Rupees)

	Closing Balance as per previous year annual account	Opening Balance taken in current annual account	Difference
GPF	12,76,77,346	12,84,03,982	(-) 7,26,636
CPF	2,39,51,375	2,39,48,173	3,202

- (ii) Differences in figures between Provident Fund Account and PF Broad-sheet

There were differences under the head subscriptions and advances/withdrawal as adopted in Broad-sheet and that booked in Provident Fund accounts as detailed below :-

(Figure in Rupee)

	As per Provident Fund Account	As per Broad-sheet	Difference
Subscription	3,94,58,037	3,89,88,107	4,69,930
Advances/Withdrawal	2,50,69,218	2,48,74,218	1,95,000

(iii) Provident Fund liability not reflected in main account (Rs. 69.82 lakh)

The asset side of balance sheet of Provident Fund account reflected Rs. 69.82 lakh as amount to be received from IGNOU. However, this amount was not shown as liability in the main accounts thereby resulting in understatement of liability by an equal amount.

(iv) Non-reconciliation of differences between assets and liabilities

In the previous year's accounts there was a difference of Rs. 7.23 lakh between assets and liabilities as pointed out in previous year's report. In response, the University had stated that efforts were on to trace the difference. However, this difference has not been reconciled in the current year's accounts.

2.23 Earmarked Fund (Specific purpose projects)

The University had 89 earmarked specific projects as per schedule number 5 appended with the annual accounts. The total amount available and recoverable in respect of all projects, as on 31st March 2002, was Rs. 1113.22 lakh and Rs. 127.57 lakh. Expenditure control register maintained in respect of these projects was not maintained properly and year ending closing has not been made.

(iii) Payment shown as per annual accounts and as per expenditure control registers, did not tally in a few cases.

(Figure in Rupee)

Name of the Project	Payment as per Annual Accounts	Payment as per ECR	Difference
Meids/SOMS	419616	16817	402799
Involuntary Rehabilitation and resettlement	1624434	1658675	34241

(iii) There were no transactions during the year 2001-02 in respect of 31 projects as the same amount of opening and closing balance was shown. Also there were no activities in the last 2/3 years in respect of 20 projects. The position of submission of utilization certificate to the sponsoring agencies was also not furnished.

(iv) In Para 2.8 of the last year's report, it was pointed out that the balance of Rs. 59.56 lakh available in respect of the K.O.U. Project (EMPC) was not included in the schedule resulting in understatement of opening and closing balance for which the University stated that he detailed reprint would be prepared and submitted during next audit. But no action was taken by the University.

2.24 Security Deposit**Difference in figures**

There were differences in opening balance and receipts as shown in Security Deposit records (cash book, ledger) and as booked in accounts as detailed below :-

(Figure in Rupees)

	As per Security Deposit Records	As per Annual Accounts	Difference
Opening Balance	18227148.50	18227128	20.50
Receipts	20996065	20996085	20

Amount not taken to Security Deposit Account

A liability of Rs. 30.71 lakh has been shown as "Security Deposit, (recovered from bills but not transferred to Security Deposit Account)". The University had not furnished the reason for not transferring it to Security Deposit and the period and the work to which this amount pertain. This amount is pending from the year 1999-2000.

2.25 Over-statement of Library Books

The value of library books in the Balance Sheet as on 31st March, 2002 was shown as Rs. 713.37 lakh including books worth Rs. 59.21 lakh purchased and gifts received Rs. 1.17 lakh during 2001-02. The records of the library revealed that the University had purchased 21798 books costing Rs. 57.04 lakh during 2001-02. The library books had been thus overstated by Rs. 2.17 lakh.

2.26 Purchase of paper overstated

An amount of Rs. 795.03 lakh had been shown as expenditure incurred on purchase of paper in the schedule 6 of Receipt and Payment Account (Non-Plan) for the year 2001-02. However, as per records of Material Production and Distribution Division (MPDD) an amount of Rs. 795.02 lakh was incurred on purchase of paper. Thus the expenditure incurred on purchase of paper has been overstated by Rs. 0.01 lakh in the Receipt and Payment Account (Non-Plan).

2.27 Value of Publications lying in stock not taken in accounts

The University has a Marketing Cell for selling various course materials for the price fixed by the University. The details regarding value of study materials available for sale, materials sold during the year and closing stock at the end of the year etc. were called for. The information was not made available to audit. However, the receipts from publication was shown as Rs. 63.45 lakh in the Receipt and Payment

Account but the amount of publications lying in stock as on 31st March, 2002 neither been furnished nor shown on the asset side of the Balance Sheet.

2.28 Amount transfer between funds

The University had been frequently transferring funds between one head of account and another. The asset side of balance sheet and ledger account of these funds revealed that this transfer of funds has been done as a matter of fact. The asset side of the balance sheet reflects that an amount of Rs. 240.66 lakh was transferred from various head of accounts/funds to other head of accounts/funds. Such transfer contradicts the conditions of sanction of grant which stipulates that amount sanctioned for a specific purpose should be utilized for that purpose only.

2.29 Private Transactions

Transactions relating to Government grants/University's funds should only be reflected in its annual accounts. However, transactions of private parties (Thrift Credit Society IGNOU, out side Society) not connected in any way with the affairs of University were reflected in its accounts. Depiction of such transactions in the annual accounts may be avoided in future.

This was pointed out in Para 2.17 of previous year's Report also, but compliance has not been done by the University.

2.30 Significant Accounting Policies and Notes to Accounts not appended with the Annual Accounts

Indira Gandhi National Open University did not append to Annual Accounts "Significant Accounting Policies and Notes to Accounts" e.g. items, if any, accounted for on cash basis and those on accrual basis, the basis of valuation of fixed assets and inventory etc.. Similarly, in notes to accounts, non-applicability of income tax on the surplus income of the organization, exemption from statutory enactments, treatment of contingent liabilities etc. have not been indicated to introduce transparency in accounts.

2.31 Documents not found authenticated

The following documents which are shown as part of the accounts for the year 2001-02 were not authenticated by any officer of the University.

- i) Receipt and Payment Accounts, Statements of Assets and Liability of Provident Fund accounts.
- ii) Earmark Fund account.
- iii) Statement of Receipt and Payment accounts of IGNOU (Non-plan)

iv) Statement of Receipt and Payment accounts and Balance Sheet Debt, Deposit and Advances.

v) Bank reconciliation statement.

2.32 Persistent irregularities

In respect of the following irregularities/deficiencies, despite being included in the SAR of the University for the last several years, no remedial action have been taken so far:

- (i) Arrears in preparation of Bank Reconciliation Statements.
- (ii) Non-maintenance of Assets Register.
- (iii) Physical verification of assets, store and stock not conducted since the inception of the Universities.
- (iv) Non-receipt of utilisation certificates of grants given to other Universities/Institutions for promotion of the Open University and correspondence course amounting to Rs 2466.12 lakh.
- (v) The authority of the account of Rs 1268.81 lakh shown in Receipt and Payment Accounts as fees from Students during the year 2001-02 could not be verified.
- (vi) The balances of Rs 59.56 lakh in respect of the K.O.U Project (EMPC) has not been included in the schedule.
- (vii) Advances amounting to Rs 2054.39 lakh for 118 deposit works paid to CPWD/PWD/DVB/other agencies which were outstanding as on 31st March 2002 including Rs 558.03 lakh pending for more than 5 year.

2.33 Non-preparation of Annual Accounts in the new/common format of Accounts

Based on the recommendation of the Committee on papers laid on the table of Parliament, a common format of accounts for the central Autonomous Bodies was devised by Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance with the approval of Comptroller and Auditor General of India to bring about uniformity and transparency in accounts. The new format was to be adopted by all Central Autonomous Bodies from the year 2001-02. However, the annual accounts of the Indira Gandhi National Open University for the year 2001-02 was not prepared in the new format. It is therefore suggested that the new format may be adopted from the year 2002-03 and onwards.

2.34 Effect of audit comments on Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account

The net impact of the preceding paras is that as on 31st March, 2002 assets were overstated by Rs. 51.65 lakh, liabilities were understated by Rs. 82.41 lakh and excess of income over expenditure was overstated by Rs. 3.40 lakh payment were overstated by Rs. 0.01 lakh.

2.35 Non receipt of reply

Reply to draft SAR, issued to IGNOU on 06.01.2003 has not been received as of August 2003.

Place : New Delhi
Date : 09.09.2003

Dr. A. K. BANERJEE
Director General of Audit
Central Revenues

Audit Certificate

I have examined the Receipt and Payment Account and Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2002 and the Statement of Assets and Liabilities as on 31st March 2002 of the Indira Gandhi National Open University. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit that in my opinion these Accounts and Statement of Assets and Liabilities are not properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Indira Gandhi National Open University according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organization.

Place : New Delhi
Date : 09.09.2003

Dr. A. K. BANERJEE
Director General of Audit
Central Revenues